



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 9--अक्टूबर 15, 2004 (आश्विन 17, 1926)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY OCTOBER 9--OCTOBER 15, 2004 (ASVINA 17, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफससों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

दिनांक 24 सितम्बर 2004

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० आर० एस० 6 (iv)/2004/75-क.मि.क.—श्री प्रसन्नजीत बोस की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 13 सितम्बर 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है।

2. श्री प्रसन्नजीत बोस की नियुक्ति परिवहन, पर्यटन और संस्कृति सम्बन्धी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनकी पदावधि के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

वंजुला जी० राजन, अवर सचिव

सं० आर० एस० 6(v)/2004/76-क.मि.क.—श्री आर० सम्पत को राज्य सभा सचिवालय में राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के मुख्य सचिव के वैयक्तिक स्टाफ में 8,000-275-13,500 रु० के वेतनमान में 9 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री आर० सम्पत की नियुक्ति राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के वर्तमान मुख्य सचिव के विवेकाधीन है तथा उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

वंजुला जी० राजन, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं० ए-19013/3/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री फुलबोक स्तोबदन को, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में

12,000-375-10,500/- रु० के वेतनमान में उस सचिव के पद पर दिनांक 3 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए। अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डी० पी० यदव, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० 12/2/2/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग में श्री के० मायवान, अनुभाग अधिकारी, अन्तरिक्ष विभाग को रु० 10,000-375-15,200 के वेतनमान पर अवर सचिव के पद पर 27 अगस्त 2004 के अपराह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

ई० वी० रमण रेड्डी, निदेशक

सं० 12/1/3/2003-I—संयुक्त सचिव, अन्तरिक्ष विभाग श्री ए० एम० बलसुब्रमण्यम, परियोजना सहायक, अन्तरिक्ष विभाग को रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में अन्तरिक्ष विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर अगस्त 27, 2004 के अपराह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

ई० वी० रमण रेड्डी, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० एफ० 6(1900)/2004-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, श्री बी० एन० नागेश, प्रबंधक (जन संपर्क), मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, कर्नाटक सरकार को उनके कार्यभार संभालने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जून 2004 के पूर्वाह्न से निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० ए-32014/2/2003-प्रशा०-I—संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2001 के आधार पर वर्ष 2001 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारियों की ग्रेड में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा गृह मंत्रालय संवर्ग में नियतन/पुनर्नियतन होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय संवर्ग में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	रैंक संख्या	अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती			
1.	शैलेन्द्र नारायण मिश्रा (11-2-1968)	33	10-6-2003 (पूर्वाह्न)	कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग
2.	उमिला रावत (1-10-1968)	35	5-6-2003 (पूर्वाह्न)	—वही—

के स्तर पर 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में योजना राज्य मंत्री (श्री एम० व्ही० राजशेखरन) के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी० एन० नागेश को योजना राज्य मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में की गई यह नियुक्ति आधार पर मंत्री के कार्यकाल के साथ सह-आवधिक अथवा पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्री के चाहने के अनुसार अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हों, तक होगी।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए-32012/1/2004-प्रशा० IV (वि० का०)—इस विभाग की दिनांक 16 अप्रैल 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संगोवन करते हुए और रोकड़ अधिकारी के कांडर-बाह्य पद से सहायक के मूल कांडर पद पर दिनांक 25-03-2004 से प्रत्यावर्तित किए जाने पर राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में, विधि कार्य विभाग तथा विवाही विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 25-03-2004 (पूर्वाह्न) से उसी विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	नाम/विभाग
1.	श्री आर० एस० सीनी, विधायी विभाग
2.	श्रीमती अमरजोत कोर, विधि कार्य विभाग

यशवंत सिंह, अवर सचिव

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती			
3.	के० बालन (30-5-1965)	37	30-5-2003 (पूर्वाह्न)	कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग
4.	दिवांकर मिश्रा (4-5-1961)	38	14-7-2003 (पूर्वाह्न)	गृह मंत्रालय (मुख्य)
5.	विजय कुमार अ० जा० (10-7-1965)	40	30-7-2004 (पूर्वाह्न)	—वही—
6.	नरेन्द्र गौतम (3-2-1973)	41	1-9-2003 (पूर्वाह्न)	—वही—
7.	अनुराग कृष्ण भटनागर (16-5-1969)	42	29-8-2003 (पूर्वाह्न)	कर्मचारी चयन अ.योग
8.	र.म गोपाल सिंह (17-1-1972)	43	23-9-2003 (पूर्वाह्न)	गृह मंत्रालय (रक्षा)
9.	वरिन्दर सिंह (10-3-1971)	44 ए	30-1-2004 (पूर्वाह्न)	कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग
10.	जय नारायण (20-9-1965)	44 जो	30-1-2004 (पूर्वाह्न)	मोमयत त्रिभुवन (राष्ट्रपति भवन)
11.	अजय कुमार सिंह (20-5-1966)	44 सो	17-3-2004 (पूर्वाह्न)	गृह मंत्रालय (मुख्य)
12.	अनिल कुमार शर्मा (28-8-1967)	44 डी	27-2-2004 (पूर्वाह्न)	—वही—
13.	मनोज कुमार सिंह (20-4-1972)	44 ई	27-2-2004 (पूर्वाह्न)	—वही—
14.	ललित कुमार (28-7-1973)	44 एफ	31-3-2004 (पूर्वाह्न)	—वही—
15.	देव नाथ साह (5-8-1965)	44 जो	22-3-2004 (अमर.ह्न)	—वही—
16.	राकेश सिंह नयाल (23-8-1969)	44 एच	25-3-2004 (पूर्वाह्न)	—वही—

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 27 सितम्बर, 2004

सं० ए-43020/23/2004-प्रशा०-1—कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं० 21/10/2004-सी० एस०-1 दिनांक 25-03-2004 के निर्बंधन में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के०स०से०) संवर्ग के गृह मंत्रालय संवर्ग में कार्यरत इन-सिटु अवर सचिवों को पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तिथि से नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुवृत्त करते हैं :

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	विभाग जहां तैनात हैं	कार्यभार ग्रहण करने का तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती		
1	अरूण प्रभा (श्रीमती)	गृह मंत्रालय	25-03-2004
2	आर० के० बंदोपाध्याय	—वही—	—वही—
3	एम० सत्या ब.बू	—वही—	—वही—

1	2	3	4
4	एस० पी० शोबन्दा	गृह मंत्रालय	25-3-2004
5	सुशील कुमार	—वही—	—वही—
6	सी० एम० नागराजन	—वही—	—वही—
7	के० के० बज्ज	—वही—	—वही—
8	हरसी सिंह	—वही—	—वही—
9	पी० के० बजरजी	—वही—	—वही—
10	के० सो० यदव	—वही—	—वही—
11	पूरन चंद	—वही—	—वही—
12	प्रभु सिंह	—वही—	—वही—
13	हराश चन्द्र	—वही—	—वही—
14	ए० गोपानथन	—वही—	—वही—
15	एस० पी० मदान (श्रीमती)	—वही—	—वही—
16	एस० नागराजा	—वही—	—वही—
17	ए० के० अजानी	—वही—	—वही—

1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमती			
18	वी० के० गुप्ता	गृह मंत्रालय	25-3-2004
19	रीत। डोगरा (श्रीमती)	-वही-	-वही-
20	जे० सी० वैत	-वही-	-वही-
21	वीरेन्द्र कुमार	-वही-	-वही-
22	आर० एस० रावत	-वही-	15-04-2004
23	पी० के० कौल	-वही-	25-03-2004
24	वी० के० सेठी	-वही-	29-03-2004
25	जे० एस० गुप्ता	-वही-	25-03-2004
26	पी० पी० मुरलीधरन	-वही-	-वही-
27	के० एम० कुट्टी	-वही-	-वही-
28	राम फल	-वही-	-वही-
29	वी० के० चोपड़ा	-वही-	-वही-
30	शिशिर दास	-वही-	-वही-
31	एन० एस० कस्तानिया	-वही-	-वही-
32	ओ० पो० डोगरा	-वही-	-वही-
33	रमण मेहरा	-वही-	-वही-
34	टी० डी० भावड़ा	-वही-	-वही-
35	बलदेव सिंह	-वही-	-वही-
36	के० के० कालरा	-वही-	-वही-
37	एन० जे० थॉमस	-वही-	-वही-
38	एस० बी० डोवल	-वही-	-वही-
39	सरोज जयसिया (श्रीमती)	-वही-	-वही-
40	अनुराग अग्रवाल	-वही-	-वही-
41	रती राम	-वही-	-वही-
42	पी० एल० शर्मा	-वही-	19-04-2004
43	आलोक मुखोपाध्याय	-वही-	25-03-2004
44	एस० डी० कौशिक	-वही-	-वही-
45	वाय० पी० धीगरा	-वही-	-वही-
46	लक्ष्मी कुरुप (श्रीमती)	-वही-	-वही-
47	आर० एस० फुगसन	-वही-	-वही-
48	वाय० टोथंग	-वही-	-वही-
49	आई० एम० शर्मा	-वही-	31-05-2004
50	गुण दत्त	-वही-	09-06-2004
51	एच० आर० करारा	-वही-	25-03-2004
52	एन० के० केसरी	कर्मचारी चयन आयोग	-वही-
53	सी० जीव. कुमार	-वही-	-वही-
54	गंगा वैद्यनथन (श्रीमती)	-वही-	-वही-
55	एस० पी० गर्ग	-वही-	-वही-
56	राजेश कुमार जैन	-वही-	-वही-

57 पी० के० अग्रवाल कर्मचारी चयन आयोग 25-3-1004

58 एम० शहाबुद्दीन -वही- -वही-

59 निम्मी धर -वही- -वही-

60 एस० के० गोस्वामी -वही- -वही-

61 वी० के० श्रीवास्तव -वही- -वही-

62 संजीव सिन्हा -वही- -वही-

63 एम० आर० सिंह आर० जो० आई० -वही-

64 के० उन्नो ण्णन मंत्रिमंडल सचिवालय
(राष्ट्रपति भवन)

65 जगदीश चंद्र मंत्रिमंडल सचिवालय
(एस)

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० ए-43020/23/2004-प्रशा० 1--कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञान सं० 21/6/2004-सीएस-1 दिनांक 16-04-2004 के निर्देश में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के०स०से) गृह मंत्रालय संज्ञा के अनुभाग अधिकारी सर्वश्री चित्तरंजन दीलागुफ तथा जेरोम मिज को पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में 16-04-2004 से नियमित अस्थिर्था के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० ए-43020/23/2004-प्रशा० 1--कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञान सं० 21/6/2004-सी एस-1 दिनांक 16-04-2004 के निर्देश में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय (मुख्य) में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के०स०से) गृह मंत्रालय संज्ञा के अनुभाग अधिकारी श्री अजय कुमार कनौजिया को पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में 16-04-2004 से नियमित अस्थिर्था के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2004

शुद्धि-पत्र

सं 1-14011/11/2004-आई पी एस-1 (2)--पटना में माननीय केन्द्रीय प्रशासक अधिकरण, रावा सिकंड कोर्ट द्वारा दिनांक 12-08-2004 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में इस मंत्रालय को दिनांक 16-08-2004 को समसंख्यक अधिसूचना में कृपया निम्नलिखित पैरा जोड़ दिया जाए।

"2. उक्त नियुक्तियाँ मानवीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, रांची सफ्ट कोर्ट, पटना बैंक में सर्वश्री जे.डी.एच. गुप्ता और बदनो शर्मा बनाम भारत एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए.सं. 560/2004 के निर्णय के अधीन होंगे।"

एस.पी.वर्मा, उप सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं 12013/3/2002-रा.भा. (का.0-1) -- राष्ट्रपति सहर्ष श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 27-7-2004 (पूर्वाह्न) से विलय आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) सरोज जैसिया, अवर सचिव

सं. 12013/3/2002-रा.भा. (का.0-1) -- राष्ट्रपति सहर्ष श्रीमती साधन त्रिपाठी को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 27-8-2004 (पूर्वाह्न) से विलय आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) सरोज जैसिया, अवर सचिव

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं. ए.32014/1/2003-केहिप्रसं/3552--विभागीय पब्लिकेशन समिति की सिफारिश पर सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिन्दी प्राध्यापकों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पदोन्नति पर रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारोब से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1	श्रीमती तनुजा सचदेव	01-06-2004
2	श्री रामोदर गौड़	15-04-2004
3	श्री एस. सी. झा	06-05-2004 (अपराह्न)
4	श्री चंद्रभान पांडे	07-07-2004
5	श्रीमती स्नेह लता	16-08-2004
6	श्री वासुदेव	07-04-2004
7	श्रीमती रोजप्रेमिका टंडु	12-04-2004
8	श्रीमती मंजु शिरीन	-वही-
9	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	11-06-2004

1	2	3
10	श्री हरिप्रोम कुमार रस्तोगी	05-08-2004
11	श्री बोरभाल वर्मा	30-04-2004
12	श्रीमती चित्रा कुण्डन	21-04-2004
13	श्रीमती पूनम दीक्षित	12-04-2004
14	श्रीमती कौशल्या	23-04-2004
15	श्री रणवीर सिंह	-वही-
16	सुश्री विरोत्तमा पातर	11-06-2004
17	श्री करण सिंह	05-05-2004 (अपराह्न)
18	श्री बी. बालकुण्डन	01-06-2004

एन. बी. नेनवाल, प्रशासनिक अधिकारी

नई दिल्ली-3, दिनांक 29 सितम्बर 2004

सं. ए-35011/1/2004-केहिप्रसं/3575--केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में लेखा अधिकारी के पद पर रु. 6500-200-10500 में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहायक श्री रविशंकर कोशिक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 16 सितम्बर 2004 पूर्वाह्न से तीन वर्ष या उसके अधिकांश, जो भी पहले हो की अवधि के लिए सचिव (राजभाषा) सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) कुसुमबोर, निदेशक

कार्मिक, लोक-शिक्षण और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं. 14015/21/1999-प्र. भा. (I)-का.0-भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम-बली, 1997 के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में विहित प्रावधानों के अनुसार, संयोजक-सेवा-अयोग ने आरक्षण प्रशासनिक सेवा के पत्र-व-तार में वर्ष 1999 के दौरान रिखा बल रहे 02 पद भरने के लिए, चयन-प्रक्रिया द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 और 24 अप्रैल, 2004 को हुई अपनी बैठकों में तैयार की गई राज-सचिव सेवा के अधिकारियों से भिन्न श्री बी. के. शर्मा (जन्म तिथि 10-02-1955) और श्री धर्मेन्द्रा सिंह (जन्म तिथि 01-01-1955) के नामों से रु. 1999 का प्रवर सूची अनुमोदित कर दो है।

पंजाब की वर्ष 1999 की प्रवर सूची में उल्लिखित अधिकारियों के नाम शामिल किया जाता निम्नलिखित न्यायालयी निर्णयों के अधीन है :-

(i) पंजाब सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा दायर ओ. ए. संख्या- 210/सी. एच. 1999

- (ii) श्री हरकेश सिंह सिद्धू द्वारा दायर ओ०ए० संख्या-1044/सी०एच०/1999
- (iii) श्री सुखचरण सिंह बराड़ द्वारा दायर ओ०ए० संख्या-1204/पी०बी०/1999
- (iv) ओ० ए० संख्या 373/सी०एच०/2004 (बी०के० शर्मा)
- (v) ओ० ए० संख्या 374/सी० एच०/2004 (बी० एन० माथुर और हरभजन सिंह)
- (vi) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 945 (सुखदेव सिंह सिधु और अन्य)
- (vii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की वर्ष 2000 को सिविल रिट याचिका संख्या 413
- (viii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 414
- (i) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 1170
- (x) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 1171

जगनलाल, अवसर सचिव

सं० 14015/21/1999-अ० भा० से० (I)-(ख)--- भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1954 के विनियम 8 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति, पंजाब राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों, सर्वश्री बी० के० शर्मा और धर्मजीत सिंह ग्रेवाल को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिबीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसार उन्हें पंजाब-संवर्ग में आवंटित करते हैं।

पंजाब को वर्ष 1999 की प्रवर सूची में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयों में म.मलों के नियम के अधीन है :—

- (i) पंजाब सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा दायर ओ० ए० संख्या-210/सी०एच०/1999
- (ii) श्री हरकेश सिंह सिद्धू द्वारा दायर ओ० ए० सं० 1044/सी०एच०/1999
- (iii) श्री सुखचरण सिंह बराड़ द्वारा दायर ओ० ए० सं० 1204/पी०बी०/1999
- (iv) ओ० ए० सं० 373/सी०एच०/2004 (बी० के० शर्मा)

- (v) ओ० ए० सं० 374/सी०एच०/2004 (बी० एन० माथुर और हरभजन सिंह)
- (vi) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका सं० 945 (सुखदेव सिंह सिधु और अन्य)
- (vii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका सं० 413
- (viii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका सं० 414
- (ix) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका सं० 1170
- (x) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वर्ष 2000 की सिविल रिट याचिका सं० 1171

जगन लाल, अवसर सचिव

दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० 14015/09/2003-अ० भा० से० (1)-क--- भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम-म.वली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम 3 में निहित प्रावधानों के अनुसार संव लोह सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग में वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 के दौरान रिक्त चत रई क्रमशः बी.ए. (20), नौ (09), आठ (08) और पांच (05) पदों को भरने के लिए दिनांक 29 एवं 30 जून और 07 जुलाई, 2004 को आयोजित बैठकों में चयन समिति द्वारा तैयार की गई, बिहार राज्य के राज्य-सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों से युक्त वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 को चयन सूचियों का अनुमोदन कर दिया है :-

वर्ष 2001 की चयन सूची

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्व श्री	
1.	महेश्वर प्रसाद सिंह	10-01-1950
2.	कुमार आनन्द	14-10-1947
3.	भृगु नथ उप.ध्याय	10-7-1949
4.	राण. अवधेश कुमार	08-05-1950
5.	राजोव लोबन	26-06-1950
6.	नरसिंह उमाध्याय	26-04-1950
7.	दयानन्द प्रसाद	26-01-1947
8.	असिफ जमन खान	12-05-1947
9.	अनवर अलम मंजर	20-07-1948
10.	नारायण मूर्ति	10-10-1947
11.	अशोक कुमार सिंह	30-06-1948

1	2	3
	सर्वश्री	
12.	भृगु नथ द्विवेदी	16-01-1947
13.	मुरलीधर राय	01-06-1947
14.	हेमचन्द झा	10-07-1948
15.*	विष्णुदेव प्रसाद सिंह	01-08-1949
16.	बीरेन्द्र बहादुर पाण्डेय	30-01-1948
17.	कमलेश्वर प्रसाद सिंह	05-06-1949
18.	ओम एस० एम० बान्हे	30-05-1948
19.*	रामाशीष शर्मा	08-02-1947
20.**	गिरीश नंदन सिंह	26-11-1947

* सूची में क्रम सं० 4, 15 और 19 पर दिए गए अधिकारियों के नाम, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं।

** सूची में क्रम सं० 20 पर अधिकारी का नाम, उनके विरुद्ध संबंधित दायिद्वार कार्यवाही के मामले में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

वर्ष 2002 की चयन सूची

क्र० सं० अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)	
0क* र.ण. अवधेश कुमार	08-05-1950
1. भगवत प्रसाद शर्मा	02-01-1948
1क.* विष्णुदेव प्रसाद सिंह	01-08-1949
1ख.* रामाशीष शर्मा	08-02-1947
1ग.** गिरीश नंदन सिंह	26-11-1947
2. श्यामनन्दन शर्मा	01-07-1949
3. कृष्णा नन्द मलिक	21-05-1948
4. उपेन्द्र शर्मा	06-07-1948
5. जगन्नाथ शर्मा	05-01-1949
6.@ गोपाल प्रसाद सिंह	12-12-1948
7. राय प्रमोद कुमार	04-03-1949
8. प्रमोद नारायण झा	27-06-1948
9. रामशोभित पासवान	20-06-1949

*सूची में क्रम सं० 0क, 1क और 1ख पर दिए गए अधिकारियों के नाम, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं।

**सूची में क्रम सं० 1ग पर अधिकारी का नाम, उनके विरुद्ध संबंधित दायिद्वार कार्यवाही के मामले में अनापत्ति और

राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

@सूची में क्रम सं० 6 पर अधिकारी का नाम, उनके विरुद्ध संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में अनापत्ति प्राप्त हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

सूची में क्रम सं० 0क, 1क, 1ख और 1ग पर अधिकारियों के नाम, पक्षोन्नति विनियमवली के विनियम 5(5) के दूसरे परन्तुक के अनुसार शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	लत्तन सिंह	01-05-1951
1क*	र.णा अवधेश कुमार	08-05-1950
1ख*	विष्णुदेव प्रसाद सिंह	01-08-1949
1ग*	रामाशीष शर्मा	08-02-1947
1घ**	गिरीश नंदन सिंह	26-11-1947
1ङ@	गोपाल प्रसाद सिंह	12-12-1948
2.	प्राण मोहन ठाकुर	06-07-1950
3.	विजय कुमार	30-03-1949
4.	हसनैन अलम	15-04-1949
5.	सुभन कुमार	06-04-1949
6.	उपेन्द्र कुमार राय	21-01-1950
7.	विश्वनाथ सिंह	01-01-1950
8.	मोहम्मद शरीफ आलम	19-11-1949

*सूची में क्रम संख्या 1क, 1ख, और 1ग, पर अधिकारियों के नाम, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं।

** सूची में क्रम संख्या 1घ पर अधिकारी का नाम उनके विरुद्ध संबंधित दायिद्वार कार्यवाही के मामले में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

@ सूची में क्रम संख्या 1ङ पर अधिकारी का नाम, उनके विरुद्ध संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में अनापत्ति प्राप्त हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

क्रम संख्या 1क, 1ख, 1ग, 1घ, और 1ङ पर अधिकारियों के नाम, पक्षोन्नति विनियमवली के विनियम 5(5) के दूसरे परन्तुक के अनुसार शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2004 की चयन सूची

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	बैद्यनाथ प्रसाद	06-01-1951
1 क*	रण अवधेश कुमार	08-05-1950
1 ख*	विष्णुदेव प्रसाद सिंह	01-08-1949
1 ग*	रामाशीष शर्मा	08-02-1947
1 घ**	गिरीश नन्दन सिंह	26-11-1947
1 ङ@	गोपाल प्रसाद सिंह	12-12-1948
2.	जीवन कुमार सिन्हा	25-04-1950
3.	निरंजन कुमार चौधरी	01-10-1950
4.	प्रभात कुमार साहू	10-09-1950
5.*	उदय नारायण ठाकुर	04-04-1951

*सूची में क्रम संख्या 1क, 1ख, 1ग, और 5 पर अधिकारियों के नाम, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं।

** सूची में क्रम सं० 1घ पर अधिकारी का नाम उनके विरुद्ध लंबित दाखिल कार्यवाही के मामले में अनपत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

@ सूची में क्रम सं० 1ङ पर अधिकारी का नाम, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में अनपत्ति प्राप्त हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के अधीन अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

क्र०सं० 1क, 1ख, 1ग, 1घ, और 1ङ पर अधिकारियों के नाम, पदोन्नति विनियमवली के विधिम 5 (5) के दूसरे परन्तुक के अनुसार शामिल किए गए हैं।

उपरोक्त सूची में बिहार के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के नाम, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पटना न्यायपीठ के सक्षम लंबित फिलजिखत याचिकाओं के निर्णय के अधीन शामिल किए गए हैं।

- 2004 की ओ० ए० सं० 558 (डी० ए० चौधरी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य)
- 2004 की ओ० ए० सं० 559 (योगेश नारायण दास तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य)
- 2004 की ओ० ए० सं० 583 (नरेश्वर प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य)
- 2004 की ओ० ए० सं० 589 (जमीरुद्दीन अंसारी बनाम भारत संघ तथा अन्य)
- 2004 की ओ० ए० सं० 645 (कुमार अजोत बनाम भारत संघ तथा अन्य)

जगन लाल, अवर सचिव

सं० 14015/09/2003-अ०भा० (1)-(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमवली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवर्तन) नियमवली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमवली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रांत, बिहार राज्य-सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सत्कृत प्रमाण-पत्र अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में परित्याग पर निरुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमवली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसार उन्हें बिहार संवर्ग में आवंटित करते हैं :-

2001 की प्रवर सूची

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
सर्वश्री	
1.	महेश्वर प्रसाद सिंह
2.	कुमार आनन्द
3.	भृगु नाथ उपाध्याय
4.	राजीव लोचन
5.	नरसिंह उपाध्याय
6.	दयानन्द प्रसाद
7.	आसिफ जमान खान
8.	अनवर आलम मंजर
9.	नारायण मूर्ति
10.	अशोक कुमार सिंह
11.	भृगु नाथ द्विवेदी
12.	मुरलीधर राय
13.	हेमचन्द्र झा
14.	बोरेन्द्र बहुदुर पाण्डेय
15.	कमलेश्वर प्रसाद सिंह
16.	ओम एस० एम० बन्डे

2002 की प्रवर सूची

- भगवंत प्रसाद शर्मा
- श्यामनन्दन शर्मा
- कृष्णा नन्द मलिक
- उपेन्द्र शर्मा
- जगन्नाथ शर्मा
- राय प्रमोद कुमार
- प्रसन्न नारायण झा
- राजशेखर पाण्डेय

2003 की प्रवर सूची

1. लल्लन सिंह
2. प्राण मोहन ठाकुर
3. विजय कुमार
4. हसनन आलम
5. सुमन कुमार
6. उपेन्द्र कुमार राय
7. विश्वनाथ सिंह
8. मोहम्मद शरीफ आलम

2004 की प्रवर सूची

1. बंशनाथ प्रसाद
2. जीवन कुमार सिन्हा
3. निरंजन कुमार चौधरी
4. प्रभात कुमार साह

राज्य सिविल सेव. के उपर्युक्त अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेव. के बिहार संवर्ग में नियुक्ति, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष लम्बित निम्नलिखित आवेदनों के परिणाम के अधीन होगी :-

1. 2004 की ओ० ए० संख्या 558 (डी० एन० चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)
2. 2004 की ओ० ए० संख्या 559 (योगेश नारायण दास और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)
3. 2004 की ओ० ए० संख्या 586 (कामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ और अन्य)
4. 2004 की ओ० ए० संख्या 589 (जामीरुद्दीन अन्सारी बनाम भारत संघ और अन्य)
5. 2004 की ओ० ए० संख्या 645 (कुमार अमोज बनाम भारत संघ और अन्य)

जगन साह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं० 13017/23/2001-अ० मा० त०-(1)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों की सहमति से श्रीमती अनाता अभिहोत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 80) का पश्चिम बंगाल संवर्ग के अधीन दिनांक 28-06-2004 के पश्चात् एत वर्ष को अवधि के लिए, प्रातिनियुक्ति पर बने रहने का आदेश द्वारा अनुमोदन करती हैं।

के०के०शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली-110067, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० 13019/4/2001-अकादमी डेस्क राष्ट्रपति, श्री मनोज आहुजा, भा० प्र० से० (उड़ीसा : 90) और श्रीमती आरती आहुजा, भा० प्र० से० (उड़ीसा : 90) को 31-08-2004 (पूर्वाह्न) से 15100-400-18300 रुपए के वेतनमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में, उनके कार्यालय की शेष अवधि, जो 12-4-2006 तक की है, के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले हो, उप निदेशक (वरिष्ठ) (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० 13019/8/2004-अकादमी डेस्क- राष्ट्रपति, सुश्री कल्पना दुबे, आई आर ए एस (88) को 25-08-2004 (पूर्वाह्न) से 15100-400-18300 रुपए के वेतनमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले हो, उप निदेशक (वरिष्ठ) (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० ए-32013/5/2004-प्रशा०-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) श्री डी० आर० चट्टोपाध्याय को, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/13/2004-सा० ए०-1 में विहित शर्तों के अधीन, 20 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से आगे आदेशों तक इस विभाग में सेवा के वरिष्ठ ग्रेड में (उप सचिव के पद पर) नियुक्त करते हैं।

बी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं० 20/जो/863-प्रशा०-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री एस० जे० गुणशालन को कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 सितम्बर 2001 के कार्यालय ज्ञापन सं० 29/4/2001 ई०ओ० (एम०एम०-I) में विहित शर्तों के अधीन दिनांक 17 अक्टूबर 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उनके द्वारा भारत अवर सचिव के पद के वैयक्तिक उन्नयन के द्वारा इस विभाग में वैयक्तिक उन्नयन/स्व-स्थाने आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं० ए-32013/3/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिव-लय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) वी० ए० नारायणन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2004 के का० जा० सं० 21/13/2004-के० से०-I में विहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 21 सितम्बर 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, इस विभाग में सेवा के चयन ग्रेड में (उप सचिव के पद पर) नियुक्त करते हैं।

बी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० ए-32013/6/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में समूह 'क', अनुसंधान अधिकारी श्री सोमनाथ को 09-09-2004 से इस विभाग में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में, स्थानापन्न आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन० के० पृष्णकरन, उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2004

सं० 13/पी ए-II/2003—नम बदलने के परिणाम-स्वरूप 2002 बैच के भा० वि० से० (परिवीक्षार्थी) श्री बबलू स्वाइका, अव श्री अदर्श स्वाइका, के रूप में जाने जाएंगे।

विनय के० वधवा, प्रशासनिक अधिकारी (पी ए-II)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2004

सं० क्यू/पी ए-I/51/2004—राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III (स्वस्थाने) में कार्यरत अधिकारी श्रीमती रुचि घनश्याम को 1 जुलाई, 2004 के

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2004

सं० क्यू/पी बी/583/1/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपि संवर्ग के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नामों के समने लिखी तारीख से मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू/काडर/584/6/2004 दिनांक 6 जुलाई, 2004 के अनुसार उसी संवर्ग के ग्रेड-I में स्थानापन्न आधार पर नियुक्ति करते हैं :

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	चयन सूची क्र० सं०	पदोन्नति की तारीख	तैनाती का स्थान
श्री/शुश्री/श्रीमती				
1.	योगेश कुमार	5	11-06-2004	भारतीय उच्चायोग, लंदन
2.	बीना वरार	21	03-06-2004	भारतीय उच्चायोग, लंदन
4.	सरोज अरोरा	29	03-06-2004	भारतीय दूतावास, मनीला
4.	जी० के० बुद्धिराजा	36	03-06-2004	भारतीय उच्चायोग, लंदन
5.	एन० वी० वी० चेलय.ह	44	03-06-2004	भारतीय दूतावास, बांजिंग

2. नियुक्ति की अन्य शर्तें, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपि संवर्ग के ग्रेड-I के अन्य अधिकारियों के लिए लागू शर्तों के अनुसार ही होगी।

ब्रजबासी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी (पी वी-II)

पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति पश्चात पद
श्रीमती रुचि घनश्याम भा० वि० से० के (स्वस्थाने) ग्रेड-II	भा० वि० से० के ग्रेड-III	

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नति पर श्रीमती रुचि घनश्याम ने, जो स्वस्थाने (इन सीटू) आधार पर पहले से ही भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में है, 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एस पी एण्ड काडर)

दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं० क्यू/पी ए-I/70/2004—राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 1 अगस्त 2004 को पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति के बाद ग्रेड
1.	श्री आलोक प्रसद	भा० वि० से० के ग्रेड-III	भा० वि० से० के ग्रेड-II

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नति होने पर अधिकारी ने 01-08-2004 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का पदभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 31 अगस्त 2004

सं० क्यू/पी बी/26/2004—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ब) के आशुलिपिक केडर के ग्रेड-II के श्री राकेश बनती को इस मंत्रालय के दिनांक 06 मई, 2004 के कार्यालय आदेश संख्या क्यू/केडर/611/5/2002 और दिनांक 13-08-04 के परिशेष संख्या क्यू/केडर/611/5/2002 के अनुसार 17-03-2004 से उसी केडर के ग्रेड-I में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री राकेश बनती ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ब्रजबासी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी-II)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2004

सं० क्यू/पी ए-1/61/2004—अधिवर्षिता को अयु प्राप्त करने पर भारतीय दूत, ब.स. रोम में कॉसुनर, श्री एच० के० एल० बत्ता, 30-6-04 के अमराह को विदेश मंत्रालय सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अरिंदम बागचो, उप सचिव (एफ एस रो/संयं)

दिनांक 27 अगस्त 2004

सं० क्यू/पी ए-1/63/2004—राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 12 अगस्त, 2004 को पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	प्रोन्नति के बाद ग्रेड
श्री पार्था सारथी रे	भा.वि.से. के ग्रेड-II	भा.वि.से. के ग्रेड-I

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 12-8-2004 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का पदभार संभाल लिया है।

अरिंदम बागचो, उप सचिव (एफ एस पी और संयं)

सं० क्यू/पी ए-1/62/2004—राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 12 अगस्त 2004 को पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	प्रोन्नति के बाद ग्रेड
श्रीमती वीना सिकरी	भा.वि.से. के ग्रेड-II	भा.वि.से. के ग्रेड-I

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 12-8-2004 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का पदभार संभाल लिया है।

अरिंदम बागचो, उप सचिव (एफ एस रो और संयं)

दिनांक 31 अगस्त 2004

सं० क्यू ए-1/67/2004—अधिवर्षिता को आयु प्राप्त करने पर डेनमार्क में भारत के राजदूत, श्री हरोष कुमार भसीन, 31 अगस्त, 2004 के अमराह को विदेश मंत्रालय सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अरिंदम बागचो, उप सचिव (एफ एस रो/संयं)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं० डी-II/460/सो एफ-15/2004—भारत के राष्ट्रपति, तत्काल प्रभाव से श्री श्रेयस किर्तीलाल दोशी को मुम्बई में फिनलैंड के मानव कौशल के रूप में निष्ठा को मन्व्यता प्रदान करते हैं।

श्री श्रेयस किर्तीलाल दोशी का कौसली क्षेत्र महाराष्ट्र होगा।

पी० पी० सरकार, उप प्रमुख प्रौद्योगिकी (एक)

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2004

सं० 70 (फा० सं० 50/29/2004-प्रशा-1) —कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के कार्यालय सं० 21/9/2004 सी०एस०-1 और व्यय विभाग के दिनांक 22-7-2004 के कार्यालय सं० 11017/1/2004-जी ए एन (i) के अनुसंधान में, भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सांख्यिकीय सेवा (के०स०से०) के वित्त संयंत्र के निरामय सहयोग, श्री अशोक कुमार को दिनांक 26-3-2004 (पूर्वाह्न) से तैर गये प्रदेश तहसील विभाग में 6500 200-10500-र के मन्व्यता में तदर्थ अवधार पर के०स०से० के अनुशासनिक रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनेकवचन कल तक बने रहने अथवा निरामय निरामय का वातावरण में निरामय करने के लिए अथवा केन्द्रीय सांख्यिकीय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वारंशता के दावे का अधिकार है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 2 सितम्बर 2004

सं० 79 (फा० सं० ए-19011/10/2004-प्रशा०-I) — भारत के राष्ट्रपति, श्री ए० एस० नारंग, (भारतीय राजस्व सेवा : 1968) को दिनांक 31-08-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

सं० 78 (फा० सं० ए-19011/9/2004-प्रशा०-I) — भारत के राष्ट्रपति, श्री एस० चन्दा, (भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 68) को दिनांक 30-08-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

सं० 76 (फा० सं० ए-19013/21/2004-प्रशा०-1) — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के श्री डी० सी० मिश्रा को दिनांक 25-8-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (के० आ० आ० ब्यू०) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी तैनाती केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में की जाती है।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

सं० 77 (फा० सं० ए-19013/20/2004-प्रशा०-1) — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के श्री एस० पी० राव को दिनांक 1-9-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनको अपर सचिव (सीमा शुल्क-5) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

दिनांक 6 सितम्बर 2004

सं० 81 (फा० सं० ए-19013/22/2004-प्रशा०-1) — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के श्री आर० एल० मीना, को दिनांक 3-9-2004

(पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश तक राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उनको वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (आर० ए०) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर, 2004

सं० 82 (फा० सं० ए०-50/29/2004-प्रशा० 1) — कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के का०जा०सं० 21/9/2004-सं०अ०-I, वय विभाग के दिनांक 22-7-2004 के का०जा०सं० 11017/1/2004-सं०प्र०अ० (i) तथा प्रशा० 1 ख अनुभाग के दिनांक 8-9-2004 के कार्यालय आदेश फा० सं० 50/15/2004-प्रशा० 1 ख के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के०सं०से०) (च०सू०-1989/316) के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक श्री आर० के० सिन्हा को 1-9-2004 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर के० सं० से० का अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ प्रोन्नति से उनको अनिश्चितकाल से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

दिनांक 13 सितम्बर 2004

सं० 83 (फा० सं० ए०-12026/13/2004-प्रशा०-1) — भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित दो अधिकारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत उनके सम्मुख दर्शाई गई तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, 10,000--15,200/- रुपए के वेतनमान में सामान्य प्रतिनियुक्त शर्तों पर प्रतिनियुक्त आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं :-

1. श्री वी० कुलश्रेष्ठ, भारतीय राजस्व सेवा 5-4-2004 (पूर्वाह्न) से
2. श्री पी० वर्गीज व.बू, उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी (आसूचना ब्यूरो) 16-2-2004 (पूर्वाह्न) से

प्रीति पन्त, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2004

सं० 7(फा० सं० 5/2/2002-प्रशासन-1 ग)---राष्ट्रपति, श्री एस० सुनैया को 5 जनवरी, 2004 (पूर्वाह्न) से 16,400-450-20,000/- रुपए के वेतनमान में पदोन्नति पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० पी० अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2004

मुद्रि-पत्र

सं० 8 (फा० सं० 5/2/2002-प्रशासन-1 ग)---श्री एस० सुनैया, उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को नियुक्ति के संबंध में इस विभाग द्वारा फा० सं० 5/2/2002-प्रशासन-1 ग दिनांक 6-9-2004 के तहत जारी अधिसूचना सं० 7/2004 में वेतनमान को 16,400-450-20,000/- रुपए के स्थान पर 12,000-16,500/-रु० पढ़ा जाए।

बी० पी० अरोड़ा, अवर सचिव

(सक्षम प्राधिकारी एकक)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2004

मुख्यालय स्थापना (स० प्रा०)

सं० 4/2004 (सं० ए-15011/5/2203-स० प्रा०)---राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी तथा वर्तमान में आयकर आयुक्त, कालीकट के रूप में तैनात श्री एस० रवि को दिनांक 13 अगस्त, 2004 पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश तक तत्काल एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समग्रहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावक पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत सक्षम प्राधिकारी और प्रशासन, चेन्नई के रूप में नियुक्त करते हैं।

मुषमा कटारिया, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं० ए-31013/1/2003/मुष ए/1255-77---राष्ट्रपति, भारतीय सिविल लेखा सेवा के 1969 बैच के अधिकारी श्री एच० प्रभाकर राव को 26000/- रु० (नियत) के वेतनमान में 17 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में नियुक्त करते हैं।

धरित्री पांडा, उप महालेखा नियंत्रक

सोमाशुक्क, उत्पादशुल्क एवं सेवा कर अजीलिय अधिकरण

नई दिल्ली-66, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सि० सं० XIII(I)/मोनो/99---श्री वृकेश गुप्ता, कोर्ट मास्टर की पदोन्नति पर सोमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण कार्यालय में सहायक पंजीकार के पद पर वेतनमान रु० 6500--10500/- में दिनांक 5-8-04 अवराह्न से नियुक्त किया जाता है।

ए० के० अग्निहोत्री, पंजीकार

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

(अवकाश और नियुक्ति)

सं० 1/9/2003-एडीबी---राष्ट्रपति, श्री अशोक सेकिया को फिलारिन्स मनीला में एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय के निदेशक मंडल में भारत, बंगलादेश, भूटान, लाओ पीपुल्स और ताजिकिस्तान के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एम्बेस्डर के रैंक सहित एशियाई विकास बैंक में भारत के प्रधान रेजिडेंट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अगस्त 2004

सं० ए-11011/4/2001-प्रशा०-1- कम्पनी विधि बोर्ड के नियम 8क, 1993 (सदस्यों को अर्हताएं, योग्यता, अनुभव एवं अन्य सेवा शर्तों) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के उपाध्यक्ष श्री एस० बालामुक्ताणियन (कार्योत्तर) को 6-6-2004 से 2-11-2004 तक अर्थात् श्री बालामुक्ताणियन की 62 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सीएलबी में उपाध्यक्ष के पद की अवधि पूरी करने पर या जब तक राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल (एलसीएलटी) के बनने या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2004

सं० ए-12022/1/2004-व्य०-1---राष्ट्रपति, श्री अटोनी डिजा, आई० ए० एस० (स० प्रा० : 80) को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में

03 सितम्बर 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों के जारी होने तक संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 2004

सं० ए-32015/1/98-प्रशा०—इस मंत्रालय की दिनांक 24-6-2004 की समसंख्यक अधिसूचना को निरंतरता में राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आश्लिषिकों (पी० ए०) को 6500-200-10500 रुपये के वेतनान में निजी सचिव के पद पर 1-7-2004 से 31-12-2004 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मूलतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं:—

1. श्रीमती तसनीम टो० कारदार
2. श्रीमती विभा अत्री

उपर्युक्त प्रोन्नति एकदम तदर्थ आधार पर की जा रही है और यह तदर्थ प्रोन्नति उन्हें नियमित प्रोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ प्रोन्नति को किसी भी समय रद्द करने और उन्हें आश्लिषिक ग्रेड 'सी' में लौटाने का अधिकार सरकार के पास अरक्षित है।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 26 अगस्त 2004

सं० 2(2)/2004-स्थापन—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-1 अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीखों से और अगले आदेश होने तक उसी सेवा की प्रवर्ण श्रेणी में तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं।

अधिकारी का नाम और पद नाम तदर्थ पदोन्नत की तारीख (सर्व श्री)

वी०एम०सद्दो, अवर सचिव, 23-8-2004 (अनुराह्न)

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

एस०के० मुखर्जी, अवर सचिव, 20-8-2004 (पूर्वाह्न)
इस्पात मंत्रालय

राष्ट्रपति, सर्वोच्च सद्दो और मुखर्जी को इसी अवधि के लिए इस्पात मंत्रालय में उप सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

सर्वोच्च सद्दो और मुखर्जी की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रवर्ण श्रेणी में तदर्थ आधार पर कोई पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :

1. इस पदोन्नति से उन्हें प्रवर्ण श्रेणी में अनिवार्य अवधि के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए ग्रेड को प्रवर्ण सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और

2. इस पदोन्नति को काल में समाप्त और कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है,

इस्पात मंत्रालय में उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त होने पर श्री मुखर्जी ने दिनांक 20-8-2004 (पूर्वाह्न) से अवर सचिव का कार्य भार त्याग दिया है।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 13 सितम्बर 2004

सं० 5 (6)/2003 स्थापन—स्वस्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल एड्स रजिस्ट्रार ऑर्गनाइजेशन में परियोजना निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु नामित किए जाने पर, इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव एवं विज्ञान सहायक और एस० आई० कुरुक्षेत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा (एच आई : 71) को दिनांक 13-03-2004 (पूर्वाह्न) से तदर्थ-मुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० 2 (8)/2004-स्थापन—राष्ट्रपति, अधिक कार्य विभाग द्वारा नामित किए जाने पर अथवा वैद्योविज्ञान एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सहायक रहे डॉ० बी० मोहनलाल आई० ई० एस० (1976) को 06 सितम्बर, 2004, पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक इस्पात मंत्रालय में अवर अधिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं० ए-19011/1/2001-स्थापन—राष्ट्रपति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में अवर सचिव श्री ए०एम०एल० भटनगर को कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-08-2004 के कार्यादेश सं० 21/13/2004-सी एस-1 का शर्तों के अनुसार 20-08-2004 से इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

- (i) तदर्थ पदोन्नति से अनिवार्य काल के लिए इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

म० जयरामन, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए-12011/3/95-प्रशा०—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उप धारा 4 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए वायदा बाजार आयोग के सदस्य के रूप में श्री केवल राम (भा० आ० से० : 75) की पुनर्नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष अर्थात् 16-11-2004 से तीसरे वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता है।

एस० के० नायक, अवर सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 सितम्बर 2004

फाइल सं० ए०-32013/1/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा के अवर सचिव श्री एम० एल० मल्होत्रा को दिनांक 20 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 12,000—16,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अगले आदेशों तक प सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 20 अगस्त, 2004 के आदेश संख्या 21/13/2004-सो०एस०-1 में (i)-(iv) पर निर्धारित की गई शर्तों के अधीन होगी।

अंजू निगम, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० ए० 38012/1/2004-एस० अर० ए०—इस विभाग के सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ए' के उप निदेशक (एस० एंड अर०) श्री ए० के० सिवल अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 अगस्त 2004 के अग्रह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मित्र सेन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं० ए०-11011/1/2004-स्थापना-I—राष्ट्रपति, श्री करनैल सिंह भा० प्र० मे० (उ० प्र० 75) को दिनांक 20 सितम्बर 2004 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में, 18400-22400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में पांच वर्षों की सामान्य अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं० ए-01/14/2001-प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित 'डो' वैज्ञानिकों को नमनोय पूरक योजना के अन्तर्गत उनको स्व-स्थाने पदोन्नति पर 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में 01 जुलाई 2004 के पूर्वाह्न से अथवा अगली आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :

1. श्री संजय ब. जरेयी
2. श्री बी० अश्विमान

कमल प्रकाश, अवर सचिव

सं० ए-32013/01/2004-प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्री र.जेन्द्र सिंह, कनिष्ठ विश्लेषक को 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'बी' के रूप में तदर्थ आधार पर 10-09-2004 से 09-03-2005 तक और छह महीने के लिए अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कमल प्रकाश, अवर सचिव

सं० ए-32013/04/2002 प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निम्नलिखित कनिष्ठ विश्लेषकों को 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न पदोन्नति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में

वैज्ञानिक 'बी' के रूप में 12-09-2004 से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
1.	श्री बसन्त शर्मा
2.	डा० अशोक कुमार सिंह
3.	श्री राजीव शर्मा

कमल प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 4 अगस्त 2004

सं० ए-19011/9/2004-भा० व० से०-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के 1987 के बैच के मेधालय संवर्ग की अधिकारी श्रीमती अलका भागव को 02 अगस्त, 2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पाराशर, अवर सचिव

दिनांक 9 अगस्त 2004

नई दिल्ली-110016, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० ए-12023/03/96-प्रशा० 1 (ए)--राष्ट्रपति, महासागर विकास विभाग वैज्ञानिक 'एफ' तथा वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में प्रतिनियुक्ति पर डा० अरविन्द मिश्रा को 16400-450-20000/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर 17-09-2004 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष आमेलन करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली 110003, दिनांक 23 जुनई 2004

सं० 32012/1/2003-भा० व० से०-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम बर्गो 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2003 के लिए 26-12-2003 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। प्रंध लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें संयुक्त एम० यू० टी० के अरुणचल प्रदेश संवर्ग में 01 जनवरी, 2003 को उपरान्त पदोन्नति रिक्ति भरने के लिए अरुणचल प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्य का नाम शामिल है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री हंबु डोल	28-10-1957

एम० एल० पाराशर, अवर सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2004

फा० सं० 32012/1/2003-भा० व० से०-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम बर्गो 1966 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम बर्गो 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अरुणचल प्रदेश राज्य वन सेवा के अरुणचल आर्द्धदोष (जन्मतिथि 28-10-1957) को वन सूची 2003 के आधार पर दिनांक 18-8-2004 से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम बर्गो के नियम 5 के उपविनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का ए जो एन यू टी संवर्ग आवंटित करते हैं।

एम० एल० पाराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 27 सितम्बर 2004

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए०-35020/4/2004-सी०एच०एस०-IV--भारत सरकार, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-I की एक अधिकारी अ० (श्रीमती) स्नेह लता, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (राम मनोहर कोह्लिया अस्पताल) नई दिल्ली में विशेषज्ञ ग्रेड-I (स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान) के पद पर कार्यरत थीं, के दिनांक 29 जुलाई, 2004 को हुए निधन पर शोक व्यक्त करती हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 23 सितम्बर, 2004

सं० ए०-38012/3/2003-सी०एच०एस०-IV--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप-संवर्ग की विशेषज्ञ ग्रेड-I (बाल रोग) की अधिकारी डा० (श्रीमती) शान्ति अनन्तकृष्णन के स्वच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई में विशेषज्ञ ग्रेड-I (बाल रोग) के पद का कार्यभार 1 सितम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से छोड़ दिया है।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं० ए० 12024/1/98 डा०/डी एम एस एण्ड पी एफ ए (वालयुम-I)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० (श्रीमती) सायाली उमेश वाडे, वारंठ वैज्ञानिक सहायक, सोडाटोएल, मुम्बई को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद का कार्यभार ग्रहण करने को तारीख से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (सूक्ष्मजीव विज्ञान), सोडाटोएल, मुम्बई के पद पर 8,000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

नीता केजरीवाल, अवर सचिव

3-272 GI2004

सं० ए-12025/17/2001-सी०एच०एस०-I--राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० विशाल साहनी को 6-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० विशाल साहनी को उसी तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अखिल चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/190/94-सी०एच०एस०-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० शिवराज सिंह की 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० शिवराज सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अखिल चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

संख्या ए० 12025/95/94-सी०एच०एस०-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० एम० परासुलिग को 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० एस० परासुलिग को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के अखिल चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2004

सं० 12022/7/2004-स्वा०-1--राष्ट्रपति, श्री हरिवंश प्रसाद, आई०डी०एस० (85) को कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

विभाग में निदेशक के रूप में दिनांक 17-8-2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले ही नियुक्त करते हैं।

एस० एस० प्रसाद, निदेशक(कामिक)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं० 4-4/2004-विस्तार—राष्ट्रपति, श्री के० वी० सत्यनारायण, आई०ए०एस० (एमटी : 82) को कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनज) हैदराबाद में संयुक्त सचिव स्तर पर 18,400-22,400/- रु० के वेतनमान में महानिदेशक के रूप में दिनांक 5-8-2004 के पूर्वाह्न से दिनांक 4-8-2009 तक के पांच वर्ष की सामान्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले ही नियुक्त करते हैं।

यू० के० एस० चौहान, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं० 27-2555/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति श्री कुन्तल सेनसानी, आई०ई०एस० (95) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में दिनांक 16-9-2004 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर, 2004

सं० 5-11/2004-आई०एन०एम०-ए० —सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद जो कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधीनस्थ कार्यालय हैं और इसके नवी मुंबई, चैन्नई और कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाओं में कार्यरत मुख्य विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक और विश्लेषक के पदों का पदनाम परिवर्तित करने

की स्वीकृति दे दी है। पदनामों में परिवर्तनों का ब्योरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	वर्तमान पद का नाम	वेतनमान	पदनाम निम्नानुसार परिवर्तित
1.	मुख्य विश्लेषक	रु० 12000-16500	संयुक्त निदेशक
2.	वरिष्ठ विश्लेषक	रु० 10000-15200	उप निदेशक
3.	विश्लेषक	रु० 8000-13500	सहायक निदेशक

सतबीर सिंह, उप सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए-12023/1/2002-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री आई० ए० सिद्दिकी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (मात्स्यिकी) को स्थानापन्न पदोन्नति (तदर्थ) के आधार पर एक वर्ष के लिए या नियमित पदधारी के कार्यभार संभालने तक या जो पहले हो, पदोन्नति करते हुए दिनांक 17-9-2004 से उन्हें 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में मात्स्यिकी अनुसंधान अन्वेषण अधिकारो के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी० एल० मीना, अवर सचिव

सं० ए०-12025/2/2003-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित सहायक आयुक्तों को 20 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष के लिए या नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार संभालने तक या जो भी पहले हो, उप आयुक्त के पद पर पदोन्नत करते हैं :—

क्र० सं०	नाम व पदनाम	पदोन्नत पद
1.	डा० एस० गोवेकर सहायक आयुक्त (ई डी)	उप आयुक्त (एच बी)
2.	डा० बाबू राम, सहायक आयुक्त (सी यू)	उप आयुक्त (आईसी डीपी)

पी० एल० मीना, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं० 3-8/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री के० वी० कृष्णन (भा०आ०से० : 73) को 20 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक महिला एवं बाल विकास विभाग में 18,400-500-22,400 रु० के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 अगस्त, 2004 के आदेश सं० 11016/4/2002-आई०ई०एस० के अनुसरण में की गई है।

डी० क्षीरगन, निदेशक

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर, 2004

सं० ए-32012/2/2001-स्था०-I—महामहिम राष्ट्रपति, श्री सुदेश कुमार, अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) को दिनांक 20 अगस्त 2004 से तदर्थ आधार पर उप-सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा यह उक्त ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति को 'चयन सूची' में शामिल करने अथवा इससे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन से दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अंजु मल्ला, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2004

संख्या 12022/1/2004-स्थापना (जनजातीय कार्य)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री के० एन० सिंह को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीनवर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में 18,400-22,400/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 30-7-2004 (अपराह्न) से 30-11-2007 अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा

आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 20 सितम्बर 2004

संख्या 12025(i)/4/93-स्था० (जनजातीय कार्य)—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के स्थायी अनुसंधान अधिकारी, डा० आर० सो० महापात्रा को उन्नतदेश्य (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ए" राजपत्रित, गैर लिपिकीय) के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 13-8-2004 से 30-9-2004 तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक पूर्णतया अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. इस नियुक्ति से उन्हें उच्चतर ग्रेड में किसी प्रकार की वरिष्ठता या नियमित नियुक्ति हेतु अधिकार नहीं मिलेगा।

एस० के० गुप्ता, उप सचिव

दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं० 12022/1/2004-स्थापना (जनजातीय कार्य)—राष्ट्रपति, भा० प्र० से० (मध्य प्रदेश : 70) के अधिकारी श्री मनोज कुमार को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीनवर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दिनांक 18-08-2004 (अपराह्न) से सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० गुप्ता, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० 1-2/2004-प्रशासन—राष्ट्रपति, सहर्ष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-08-2004 के कार्यालय आदेश संख्या 21/13/2004-साएस० I के अंतर्गत प्रत्येक नाम के सम्मुख लिखे गए विभागों के निम्नलिखित अवर सचिवों (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड I) को सीएसएस (निदेशक) के चयन ग्रेड में आने पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर, उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख से,

12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में, डाक विभाग के संवर्ग में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वह संवर्ग जहाँ से स्थानांतरित किए गए हैं	सीएसएस के चयन ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
श्री टी० जे० बनर्जी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	25-08-2004	
श्री पी० एस० सरीन	संस्कृति	08-09-2004	

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारियों को अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं० ई (जीपी) 2002/1/50—राष्ट्रपति महोदय
भारतीय रेलों के यांत्रिक इंजीनियर विभाग के निम्नलिखित 3 ग्रुप "बी" अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 14-6-2004 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं।

क्रम सं०	अधिकारियों का नाम
1	2
	सर्व श्री
	वर्ष 2002-2003 के लिए पैनल
	मध्य रेलवे
1.	डी० एन० सोनी
2.	एस० एन० शर्मा

(प०म०रे० में कार्यरत)

1	2
पश्चिम रेलवे	
1.	एच० वी० शर्मा (प०म०रे० में कार्यरत)

वी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 24 सितम्बर, 2004

सं ई(ओ) III-2004/आर एन/13—राइट्स में स्थाई समाह्वन होने के परिणामस्वरूप, श्री डी० के० रूडोला वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा में 26-08-2004 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

वी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2004

सं० ए-12026/1/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में फिलहाल अवसर सचिव (सी एस एस ग्रेड-I) के पद पर कार्यरत श्री डी० के० गुप्ता को दिनांक 20-8-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक इसी मंत्रालय में 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। यह तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बिना कभी भी समाप्त की जा सकती है।

डा० एन० सी० कौशिक, अवसर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd September 2004

No. RS/6(iv)/2004/75-Perl.—Shri Prasenjit Bose has been temporarily appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture, with effect from the forenoon of 13th September, 2004, until further orders.

2. The appointment of Shri Prasenjit Bose is at the discretion of the present Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture and will be co-terminus with the term of his office.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

The 24th September 2004

No. RS/6(v)/2004/76-Perl.—Shri R. Sampath has been temporarily appointed as Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in the personal staff of Chief Whip of the Indian National Congress party in Rajya Sabha w.e.f. the forenoon of 9th September, 2004, until further orders.

2. The appointment of Shri R. Sampath is at the discretion of the present Chief Whip of the Indian National Congress party in the Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110066, the 10th September 2004

No. A-19013/3/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Phunchok Stobdan as Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 3rd September, 2004 on deputation basis for a period of two years or until further orders whichever is earlier.

D.P. YADAV, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, 22nd September 2004

No. 12/2/2004-I.—The President, is pleased to appoint Shri K. Mayavan, Section Officer, Department of Space, on promotion, as Under Secretary in the Department of Space in the scale of pay of Rs. 10000-375-15200 with effect from the afternoon of August 27, 2004 and until further orders.

E.V. RAMANA REDDY, Director

No. 12/1/3/2003-I.—The Joint Secretary, Department of Space, is pleased to appoint Shri A.M. Balasubramaniam, Project Assistant, Department of Space, on promotion, as Section Officer in the Department of Space in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with effect from the afternoon of August 27, 2004 and until further orders.

E.V. RAMANA REDDY, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd September 2004

No. F. 6(1900)/2004-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri B.N. Nagesh, Manager (Public Relations), Mysore Paper Mills Ltd., Govt. of Karnataka as Officer on Special Duty to the Minister of State for Planning (Shri M.V.Rajasekharan) at the level of Director in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 w.e.f. the forenoon of 1st June, 2004 i.e. the date he assumed charge of the post.

2. The appointment of Shri B.N. Nagesh as OSD to the Minister of State for Planning shall be co-terminus with the tenure of the Minister and on deputation basis for a period of five years or till the Minister desires his services or until further orders, whichever event occurs the earliest.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 20th September 2004

No. A-32012/1/2004-Admn.IV(LA):—In partial modification of this Department's notification of even number dated 16th April 2004 and on being repatriated from ex-cadre post of Cash Officer to substantive cadre post of Assistant w.e.f. 25.03.2004, the President is pleased to appoint the under mentioned officials of Department of Legal Affairs and Legislative Department in CSS cadre of the Ministry of Law & Justice as Section Officers on ad-hoc basis in the same Departments w.e.f. 25.03.2004 (F.N.):—

Sr. No. Name/Department

1. Shri R.S. Saini, Legislative Department
2. Smt. Amarjeet Kaur, Legal Affairs.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd September 2004

No. A-32014/2/2003-Ad.I.—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Section Officers grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2001 on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2001 and allocation/reallocation to the Central Secretariat

Service Cadre of the Ministry of Home Affairs, the President is pleased to appoint the following officials as Section Officer in the cadre of Ministry of Home Affairs with effect from the date shown against their names:—

Sl. No.	Name/Date of birth	Rank No.	Date of appointment as SO	Present place of posting
1.	S/Shri/Ms. Sailendra Narayana Mishra (11.2.1968)	33	10.06.2003 (FN)	DOPT
2.	Urmila Rawat (1.10.1968)	35	05.06.2003 (FN)	DOPT
3.	K Balan (30.5.1965)	37	30.05.2003 (FN)	DOPT
4.	Dibanker Mishra (4.5.1961)	38	14.07.2003 (FN)	MHA(P)
5.	Vijay Kumar, SC (10.7.1965)	40	30.07.2004 (FN)	MHA(P)
6.	Narendra Gautam (3.2.1973)	41	01.09.2003 (FN)	MHA(P)
7.	Anurag Krishan Bhatnagar (16.5.1969)	42	29.08.2003 (FN)	SSC
8.	Ram Gopal Singh (17.1.1972)	43	26.09.2003 (FN)	MHA(P)
9.	Varinder Singh (10.3.1971)	44A	30.01.2003 (FN)	DOPT
10.	Jai Narain (20.9.1965)	44B	30.01.2004 (FN)	CS (RB)
11.	Ajay Kumar Sinha (20.5.1966)	44C	17.03.2004 (FN)	MHA(P)
12.	Anil Kumar Sharma (28.08.1967)	44D	27.02.2004 (FN)	MHA (P)
13.	Manoj Kumar Singh, (20.04.1972)	44E	27.02.2004 (FN)	MHA(P)
14.	Lalit Kumar (28.7.1973)	44F	31.03.2004 (FN)	MHA(P)
15.	Deo Nath Sah (5.8.1965)	44G	22.03.2004 (AN)	MHA(P)
16.	Rakesh Singh Nayal (23.8.1969)	44H	25.03.2004 (FN)	MHA(P)

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

The 27th September 2004

No. A-43020/23/2004-Ad.1:—In terms DOPT's OM No. 21/10/2004-CS.1 dated 25.03.2004 the President is pleased to appoint the following in-situ Under Secretaries of Central Secretariat Services (CSS) Cadre working in the Ministry of

Home Affairs Cadre purely on ad-hoc basis from the date mentioned against each, till regular candidates become available or until further orders whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the officer	Department where posted	Date of Joining
1	2	3	4
1.	S/Shri Arun Prabha (Smt.)	MHA	25.03.2004
2.	R.K. Bandopadhyay	MHA	25.03.2004
3.	M Satya Babu	MHA	25.03.2004
4.	S.P. Shokhanda	MHA	25.03.2004
5.	Sushil Kumar	MHA	25.03.2004
6.	C.M. Nagarajan	MHA	25.03.2004
7.	K.K. Bajaj	MHA	25.03.2004
8.	Hardeep Singh	MHA	25.03.2004
9.	P.K. Banerjee	MHA	25.03.2004
10.	K.C. Yadav	MHA	25.03.2004
11.	Pooran Chand	MHA	25.03.2004
12.	Prabhu Singh	MHA	25.03.2004
13.	Harish Chander	MHA	25.03.2004
14.	A. Gopinathan	MHA	25.03.2004
15.	S.P. Madan (Smt.)	MHA	25.03.2004
16.	S. Nagarajan	MHA	25.03.2004
17.	A.K. Ajmani	MHA	25.03.2004
18.	V.K. Gupta	MHA	25.03.2004
19.	Rita Dogra (Smt.)	MHA	25.03.2004
20.	J.C. Bain	MHA	25.03.2004
21.	Virendera Kumar	MHA	25.03.2004
22.	R.S. Rawat	MHA	25.03.2004
23.	P.K. Kaul	MHA	25.03.2004
24.	V.K. Sethi	MHA	25.03.2004
25.	J.S. Gupta	MHA	25.03.2004
26.	P.P. Muralidhan	MHA	25.03.2004
27.	K.M. Kutty	MHA	25.03.2004
28.	Ram Phal	MHA	25.03.2004
29.	V.K. Chopra	MHA	25.03.2004
30.	Sisir Das	MHA	25.03.2004
31.	M.S. Kalania	MHA	25.03.2004
32.	O.P. Dogra	MHA	25.03.2004
33.	Raman Mehra	MHA	25.03.2004

1	2	3	4
34.	T.D. Chhabra	MHA	25.03.2004
35.	Baldev Singh	MHA	25.03.2004
36.	K.K. Kalra	MHA	25.03.2004
37.	N.J. Thomas	MHA	25.03.2004
38.	S.B. Doval	MHA	25.03.2004
39.	Saroj Jaisia (Smt)	MHA	25.03.2004
40.	Anurag Bhalla	MHA	25.03.2004
41.	Ratti Ram	MHA	25.03.2004
42.	P.L. Shardul	MHA	19.03.2004
43.	Alok Mukhopadhyay	MHA	25.03.2004
44.	S.D. Kaushik	MHA	25.03.2004
45.	Y.P. Dhingra	MHA	25.03.2004
46.	Lakshmi Kurup (Smt.)	MHA	25.03.2004
47.	R.S. Phungshin	MHA	25.03.2004
48.	Y. Touthang	MHA	25.03.2004
49.	I.M. Sharma	MHA	31.05.2004
50.	Krishna Dutt	MHA	09.06.2004
51.	H.R. Karara	MHA	25.03.2004
52.	N.K. Kesari	SSC	25.03.2004
53.	C. Jeeva Kumar	SSC	05.04.2004
54.	Ganga Vaidyanathan Smt	SSC	25.03.2004
55.	S.P. Garg	SSC	25.03.2004
56.	Rajesh Kumar Jain	SSC	25.03.2004
57.	P.K. Agarwal	SSC	25.03.2004
58.	M. Shahabudeen	SSC	25.03.2004
59.	Nimmi Dhar	SSC	25.03.2004
60.	S.K. Goswami	SSC	25.03.2004
61.	V.K. Srivastava	SSC	25.03.2004
62.	Sanjeev Sinha	SSC	25.03.2004
63.	M.R. Singh	RGI	25.03.2004
64.	K. Unnikrishanan	CS (RB)	25.03.2004
65.	Jagdish Chander	CS(S)	25.03.2004

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. A-43020/23/204Ad.I—In terms of DOPT's OM No. 21/06/2004-CS-I(ii) dated 16.04.2004 the President is pleased to appoint Shri Chittaranjan Daulaguphu and Jerome Minz, Section Officers of Central Secretariat Services (CSS) Cadre of Ministry of Home Affairs as Under Secretaries purely on

ad-hoc basis from 16.04.2004 till regular candidates become available or until further orders whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. A-43020/23/2004-Ad.I—In terms of DOPT's OM No. 21/06/2004-CS (i) dated 16.04.2004 the President is pleased to appoint Shri A.K. Kanaujia, Section officer of Central Secretariat Services (CSS) Cadre of Ministry of Home Affairs presently working in MHA(P) as Under Secretary purely on ad-hoc basis from 16.04.2004 till regular candidate become available or until further orders whichever is earlier.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 23rd September 2004

CORRIGENDUM

No. I-14011/11/2004-IPS.I (2)—In pursuance of an interim order dated 12.08.2004 passed by Hon'ble Central Administrative Tribunal, Circuit Court of Ranchi, at Patna the following para may please be added in this Ministry's Notification of even number dated 16.08.2004.

2. "The above appointments shall be subject to the outcome of OA No. 560/2004 filed by S/Sh. J.D.H. Guria and Daddanji Sharma Vs. Union of India and others in the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Circuit Court of Ranchi, Patna Bench."

S. P. VERMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 24th September 2003

No. 12013/3/2002-OL (Impl.-I)—The President is pleased to appoint smt. Sushmita Bhattacharya as Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on absorption basis with effect from 27.7.2004 (F.N.).

Smt. SAROJ JAISIA, Under Secy.

No. 12013/3/2002-OL (Impl.-I)—The President is pleased to appoint Smt. Sadhana Tripathi as Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on absorption basis with effect from 27.8.2004 (F.N.).

Smt. SAROJ JAISIA, Under Secy.

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

New Delhi.-3, the 28th September 2004

No. A-32014/1/2003-CHTI—The Secretary (Official Language), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on recommendation of the Departmental

Promotion Committee, is pleased to appoint the following Hindi Pradhyapak as Asstt. Director (Language) Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme on promotion in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- from the date given against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. Tanuja Sachdev	01.06.2004
2.	Sh. Damodar Gaur	15.04.2004
3.	Sh. S. C. Jha	06.05.2004 (AN)
4.	Sh. C. B. Pandey	07.07.2004
5.	Smt. Sneha Lata	16.08.2004
6.	Sh. Vasu Dev	07.04.2004
7.	Smt. Ross Premica Tudu	12.04.2004
8.	Smt. Manju Shireen	12.04.2004
9.	Sh. Rajinder Kumar Sharma	11.06.2004
10.	Sh. Hariom Kumar Rastogi	05.08.2004
11.	Sh. Veer Pal Verma	30.04.2004
12.	Smt. Chitra Krishnan	21.04.2004
13.	Smt. Poonam Dixit	12.04.2004
14.	Smt. Koshalya	23.04.2004
15.	Sh. Ranvir Singh	23.04.2004
16.	Ms. Virottama Patar	11.06.2004
17.	Sh. Karan Singh	05.05.2004 (AN)
18.	Sh. V. Balakrishnan	01.06.2004

N. B. NAINWAL, Administrative Officer

New Delhi-3, the 29th September 2004

No. A-35011/1/2004-CHTI/3575—The Secretary (Official Language) is pleased to appoint Shri R. S. Kaushik, Assistant, Ministry of Information & Broadcasting, as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, with effect from 16th September, 2004 (F.N.), on deputation basis, for a period of three years, or till further orders, whichever is earlier.

(Smt.) KUSUM VEER, Dir.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th September 2004

No. 14015/21/1999-AIS (I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (I) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 1999 Select List containing the names of Sh. V. K. Sharma (D.O.B. 10.02.1955) and Sh. Dharamjit Singh

Grewal (D.O.B. 01.01.1955), members of the non-State Civil Service of the State of Punjab prepared by the Selection Committee in its meetings held on 16th February, 2004 and 24th April, 2004, towards filling up two (02) existing vacancies in the Punjab Cadre of the Indian Administrative Service, during 1999.

The inclusion of the name of the above officers in the Select List of 1999 for Punjab is subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) OA No. 210/CH/1999 filed by the Punjab Civil Service Officers' Association
- (ii) OA No. 1044/CH/1999 filed by Sh. Harkesh Singh Sidhu
- (iii) OA No. 1204/PB/1999 filed by Sh. Sukhcharan Singh Brar
- (iv) OA No. 373/CH/2004 (V. K. Sharma)
- (v) OA No. 374/CH/2004 (V. N. Mathur & Harbhajan Singh)
- (vi) CWP No. 945 CAT of 2000 (Sukhdev Singh Sidhu & Others)
- (vii) CWP No. 413-CAT of 2000
- (viii) CWP No. 414-CAT of 2000
- (ix) CWP No. 1170-CAT of 2000
- (x) CWP No. 1171-CAT of 2000

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/21/1999-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. V. K. Sharma and Dharamjit Singh Grewal, non-State Civil Service officers of Punjab to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Punjab Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

The appointment of the above officers in the Select List of 1999 for Punjab is subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) OA No. 210/CH/1999 filed by the Punjab Civil Service Officers' Association
- (ii) OA No. 1044/CH/1999 filed by Sh. Harkesh Singh Sidhu
- (iii) OA No. 1204/PB/1999 filed by Sh. Sukhcharan Singh Brar
- (iv) OA No. 373/CH/2004 (V. K. Sharma)

- (v) OA No. 374/CH/2004 (V. N. Mathur & Harbhajan Singh)
 (vi) CWP No. 945 CAT of 2000 (Sukhdev Singh Sidhu & Others)
 (vii) CWP No. 413-CAT of 2000
 (viii) CWP No. 414-CAT of 2000
 (ix) CWP No. 1170-CAT of 2000
 (x) CWP No. 1171-CAT of 2000

JAGAN LAL, Under Secy.

The 23rd September 2004

No. 14015/09/2003-AIS (I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists of 2001, 2002, 2003 and 2004 for Bihar containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Bihar prepared by the Selection Committee in its meetings held on 29th & 30th June and 7th July, 2004, towards filling up twenty (20), nine (09), eight (08) and five (05) vacancies during 2001, 2002, 2003 and 2004 respectively in the Indian Administrative Service, Bihar Cadre :—

SELECT LIST OF 2001

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Maheshwar Prasad Singh	10.01.1950
2.	Kumar Anand	14.10.1947
3.	Bhriugu Nath Upadhyaya	10.07.1949
4.*	Rana Awdhesh Kumar	08.05.1950
5.	Rajiva Lochan	26.06.1950
6.	Narsing Upadhyaya	26.04.1950
7.	Dayanand Prasad	26.01.1947
8.	Asif Jaman Khan	12.05.1947
9.	Anwar Alam Manzar	20.07.1948
10.	Narayan Murti	10.10.1947
11.	Ashok Kumar Singh	30.06.1948
12.	Bhrigunath Dwivedi	16.01.1947
13.	Muralidhar Rai	01.06.1947
14.	Hemchandra Jha	10.07.1948
15.*	Vishnudeo Prasad Singh	01.08.1949
16.	Birendra Bahadur Pandey	30.01.1948

1	2	3
17.	Kamleshwar Prasad Singh	05.06.1949
18.	Om S. M. Bande	30.05.1948
19.*	Ramashish Sharma	08.02.1947
20.#	Girish Nandan Singh	26.11.1947

* The inclusion of the names of the officers at Sl. Nos. 4, 15 and 19 in the list are provisional subject to grant of integrity certificate by the State Government.

The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 20 in the list is provisional subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST OF 2002

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
0A*	Rana Awdhesh Kumar	08.05.1950
1.	Bhagwat Prasad Sharma	02.01.1948
1A*	Vishnudeo Prasad Singh	01.08.1949
1B*	Ramashish Sharma	08.02.1947
1C#	Girish Nandan Singh	26.11.1947
2.	Shyamnandan Sharma	01.07.1949
3.	Krishna Nand Malik	21.05.1948
4.	Upendra Sharma	06.07.1948
5.	Jagannath Sharma	05.01.1949
6.@	Gopal Prasad Singh	12.12.1948
7.	Rai Pramod Kumar	04.03.1949
8.	Promod Narayan Jha	27.06.1948
9.	Ramshobhit Paswan	20.06.1949

*The inclusion of the names of the officers at Sl. Nos. 0A, 1A and 1B in the list are provisional subject to grant of integrity certificate by the State Government.

The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 1C in the list is provisional subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

@ The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 6 in the list is provisional subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

The names at 0A, 1A, 1B and 1C have been included in the list under 2nd proviso to Regulation 5(5) of the Promotion Regulations.

SELECT LIST OF 2003

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Lallan Singh	01.05.1951
1A*	Rana Awdhesh Kumar	08.05.1950

1	2	3
	S/Shri	
1B*	Vishnudeo Prasad Singh	01.08.1949
1C*	Ramashish Sharma	08.02.1947
1D#	Girish Nandan Singh	26.11.1947
1E@	Gopal Prasad Singh	12.12.1948
2.	Pran Mohan Thakur	06.07.1950
3.	Vijay Kumar	30.03.1949
4.	Hasnain Alam	15.04.1949
5.	Suman Kumar	06.04.1949
6.	Upendra Kumar Rai	21.01.1950
7.	Bishwanath Singh	01.01.1950
8.	Md. Sharif Alam	19.11.1949

* The inclusion of the names of the officers at Sl. Nos. 1A, 1B and 1C in the list is provisional subject to grant of integrity certificate by the State Government.

The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 1D in the list is provisional subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

@ The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 1E in the list is provisional subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

The names at 1A, 1B, 1C, 1D and 1E have been included in the list under 2nd proviso to Regulation 5(5) of the Promotion Regulations.

SELECT LIST OF 2004

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Baidyanath Prasad	06.01.1951
1A*	Rana Awdhesh Kumar	08.05.1950
1B*	Vishnudeo Prasad Singh	01.08.1949
1C*	Ramashish Sharma	08.02.1947
1D#	Girish Nandan Singh	26.11.1947
1E@	Gopal Prasad Singh	12.12.1948
2.	Jiwan Kumar Sinha	25.04.1950
3.	Niranjana Kumar Choudhari	01.10.1950
4.	Prabhat Kumar Sah	10.09.1950
5.*	Uday Narain Thakur	04.04.1951

* The inclusion of the names of the officers at Sl. Nos. 1A, 1B, 1C and 5 in the list is provisional subject to grant of integrity certificate by the State Government.

The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 1D in the list is provisional subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

@ The inclusion of the name of the officer at Sl. No. 1E in the list is provisional subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

The names at 1A, 1B, 1C, 1D and 1E have been included in the list under 2nd proviso to Regulation 5(5) of the Promotion Regulations.

The inclusion of the name of the SCS officers of Bihar in the above Select Lists will be subject to the outcome of the following applications pending before the Hon'ble CAT, Patna Bench :—

1. OA No. 558 of 2004 (D. N. Choudhary & Ors. Vs. UOI & Ors.)

2. OA No. 559 of 2004 (Yogesh Narain Das & Ors. Vs. UOI & Ors.)

3. OA No. 586 of 2004 (Kameshwar Pd. Singh Vs. UOI & Ors.)

4. OA No. 589 of 2004 (Zamiruddin Ansari Vs. UOI & Ors.)

5. OA No. 645 of 2004 (Kumar Ajit Vs. UOI & Ors.)

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/09/2003-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Bihar to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Cadre of Bihar under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST OF 2001

Sl. No.	Name of the Officer
1	2
	S/Shri
1.	Maheshwar Prasad Singh
2.	Kumar Anand
3.	Bhriagu Nath Upadhyaya
4.	Rajiva Lochan
5.	Narsing Upadhyaya

1 2

6. Dayanand Prasad
7. Asif Jaman Khan
8. Anwar Alam Manzar
9. Narayan Murti
10. Ashok Kumar Singh
11. Bhrigunath Dwivedi
12. Muralidhar Rai
13. Hemchandra Jha
14. Birendra Bahadur Pandey
15. Kamleshwar Prasad Singh
16. Om S. M. Bande

SELECT LIST OF 2002

1. Bhagwat Prasad Sharma
2. Shyammandan Sharma
3. Krishna Nand Malik
4. Upendra Sharma
5. Jagannath Sharma
6. Rai pramod Kumar
7. Pramod Narayan Jha
8. Ramshobhit Paswan

SELECT LIST OF 2003

1. Lallan Singh
2. Pran Mohan Thakur
3. Vijay Kumar
4. Hasnain Alam
5. Suman Kumar
6. Upendra Kumar Rai
7. Bishwanath Singh
8. Md. Sharif Alam

SELECT LIST OF 2004

1. Baidyanath Prasad
2. Jiwan Kumar Sinha
3. Niranjana Kumar Choudhari
4. Prabhat Kumar Sah

The Appointment by Promotion of the above State Civil Service Officers to the Bihar Cadre of the Indian Administrative Service will be subject to the outcome of the following applications pending before the Hon'ble CAT, Patna Bench :—

1. OA No. 558 of 2004 (D. N. Choudhary & Ors. Vs. UOI & Ors.)

2. OA No. 559 of 2004 (Yogesh Narain Das & Ors. Vs. UOI & Ors.)

3. OA No. 586 of 2004 (Kameshwar Pd. Singh Vs. UOI & Ors.)

4. OA No. 589 of 2004 (Zamiruddin Ansari Vs. UOI & Ors.)

5. OA No. 645 of 2004 (Kumar Ajit Vs. UOI & Ors.)

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 21st September 2004

No. 13017/23/2001-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Orissa and West Bengal, the Central Govt. hereby accords approval for continued deputation of Smt. Anita Agnihotri, IAS (RR : 80) to West Bengal Cadre for a period of one year beyond 28.6.2004.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi-110067, the 22nd September 2004

No. 13019/4/2001-ACADEMY (DESK)—The President is pleased to appoint Shri Manoj Ahuja, IAS (OR : 90) and Smt. Arti Ahuja, IAS (OR : 90) as Deputy Directors (Senior) (Director Level) in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from 31.8.2004 (forenoon) for the balance period of their tenure which would be upto 12.4.2006 or until further orders whichever event takes place earlier.

JAGMOHAN GUPTA, Dir.

The 23rd September 2004

No. 13019/8/2004-ACADEMY (DESK)—The President is pleased to appoint Ms. Kalpana Dube, IRAS (88) as Deputy Director (Senior) (Director level) in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from 25.8.2004 (FN) for a period of five years or until further orders whichever event takes place earlier.

JAGMOHAN GUPTA, Dir. (Training)

New Delhi, the 22nd September 2004

No. A-32013/5/2004-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri D. R. Chattopadhyay, a Grade I Officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service, to Selection Grade of the Service (Deputy Secretary) in this Department with effect from the forenoon of 20th August, 2004 until further

orders subject to the conditions laid down in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 21/13/2004-CS.I dated 20th August, 2004.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. 20/G/863-Ad.I-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri S. J. Gunaseelan, a Grade-I Officer of Central Secretariat Service, as Deputy Secretary on personal upgradation/in-situ basis in this Department by personal upgradation of the post of Under Secretary held by him with effect from the forenoon of 17th October, 2003 until further orders subject to the conditions specified in this Department's office Memorandum No. 29/4/2001-EO (MM-I) dated 12th September, 2001.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/5/2004-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri B. A. Narayanan, a Grade-I Officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service, to Selection grade of the Service (Deputy Secretary) in this Department with effect from the forenoon of 21st September, 2004 until further orders subject to the conditions laid down in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 21/13/2004-CS.I dated 20th August, 2004.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 22nd September 2004

No. A-32013/6/2004-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Somnath, Research Officer Group 'A' in the Department of Personnel & Training as Senior research Officer on officiating basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Department w.e.f. 9.9.2004.

N. K. PUSHPAKARAN, Dy Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi the 22nd June 2004

No. 13/PA-II/2003—Consequent upon change of name Shri Bablu Swaika, IFS (Probationer) of the 2002 batch, shall hereafter be known as Shri Adarsh Swaika.

VINAY K. WADHWA, Administrative Officer (PA-II)

New Delhi, the 14th July 2004

No. Q/PA-I/51/2004—The President is pleased to appoint Smt. Ruchi Ghanashyam, presently an officer in Grade-III (in-situ) of the Indian Foreign Service to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 1st July, 2004.

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Smt. Ruchi Ghanashyam	Grade-III (In-situ) of IFS	Grade-III of IFS

2. On substantive promotion to Grade-III of IFS, Smt. Ruchi Ghanashyam who is already in Grade-III of the IFS on in situ basis, assumed charge of the post in Grade-III of the IFS, with effect from the forenoon of the 1st July, 2004 on regular basis.

B.N. REDDY
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 10th September 2004

No. Q/PA-I/70/2004—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 1st August, 2004.

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Shri Alok Prasad	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 01.08.2004 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B.N. REDDY
Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 23rd July 2004

No. Q/PB/583/1/04—The President is pleased to appoint the following officers of Grade II of Stenographers' Cadre of IFS(B) to officiate in Grade I of the same cadre with effect from the date shown against each in terms of Ministry's Office Order No. Q/CAD/584/6/2004 dated 06th July, 2004:—

Sl. No.	Name	Select List No.	Date of Appointment	Present Deployment
	(S/Sh./Sml)			
1.	Yogesh Kumar	5	11.06.2004	HCI, London
2.	Veena Brar	21	03.06.2004	HCI, London
3.	Saroj Arora	29	03.06.2004	E/I, Manila
4.	G.K. Budhiraja	36	03.06.2004	HCL, London
5.	N.V.V. Chelliah	44	03.06.2004	E/I, Beijing

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade I of the Stenographers' Cadre of IFS(B).

BRAJABASHI SARKAR
Admn. Officer (PB-II)

The 31st August 2004

No. Q/PB/26/2004—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Banati, an officer of Grade II of Stenographers'

Cadre of IFS(B) to officiate in Grade I of the same cadre with effect from 17.03.2004 in terms of Ministry's Office Order No. Q/CAD/611/5/2002 dated 06th May, 2004 & Addendum No. Q/CAD/611/5/2002 dated 13.08.2004.

2. Shri Rakesh Banati has assumed charge of the post of Private Secretary at his place of posting with effect from the date mentioned above.

BRAJABASHI SARKAR
Admin. Officer (PB-II)

New Delhi, the 26th August 2004

No. Q/PA-I/61/2004—On attaining the age of superannuation, Shri H.K.L. Batra, Counsellor, Embassy of India, Rome, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30.06.2004.

ARINDAM BAGCHI
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 27th August 2004

No. Q/PA-I/63/2004—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of 12th August, 2004.

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Shri Partha Sarathi Ray	Grade-II of IFS	Grade-I of IFS

2. On promotion to Grade-I of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-II of IFS on the forenoon of 12.08.2004 and assumed charge of the post in Grade-I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/62/2004—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of 12th August, 2004.

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Smt. Veena Sikri	Grade-II of IFS	Grade-I of IFS

2. On promotion to Grade-I of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-II of IFS on the forenoon of 12.08.2004 and assumed charge of the post in Grade-I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

New Delhi, the 31st August 2004

No. Q/PA-I/67/2004—On attaining the age of superannuation, Shri Harsh Kumar Bhasin, Ambassador of India to Denmark, retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of August 31, 2004.

ARINDAM BAGCHI
Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 23rd September 2004

No. D.III/460/CF-01/2004—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Shreyas Kirtilal Doshi as Honorary Consul of Finland in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Shreyas Kirtilal Doshi comprises the State of Maharashtra.

P.P. SIRCAR
Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd August 2004

No. 70: (F.No.50/29/2004-Ad.I):—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/9/2004-CS-I dated 25.3.2004 and Department of Expenditure's O.M. No. 11017/1/2004-CAS(i), dated 22.07.2004, the President of India is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, regular Assistant of the Finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of the CSS on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Revenue w.e.f. 26.3.2004 (FN) and until further orders.

2. The above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade of Central Secretariat Service.

PREETI PANT, Under Secy.

The 2nd September 2004

No. 79: (F.No. A.19011/10/2004-Ad.I):—The President of India is pleased to appoint Shri A.S. Narang, (IRS:1968), as Member, Central Board of Direct Taxes and Ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 31.08.2004 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 78: (F.No.A.19011/9/2004-Ad.I):—The President of India is pleased to appoint Shri S. Chandra (IC&CES:68) as Member of the Central Board of Excise & Customs and Ex-

office Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue w.e.f. 30.08.2004(FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 76: (F.No. A-19013/21/2004-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri D.C. Mishra, IC&CES as Senior Technical Officer in the Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) in the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 25.8.2004 (FN) and until further orders. He is posted as Senior Technical Officer, Central Economic Intelligence Bureau.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 77 (F.No. A-19013/20/2004-Ad.I):—The President of India is pleased to appoint Shri S.P. Rao, IC&CES as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 1.9.2004(FN) and until further orders. He is posted as Under Secretary (Cus-V).

PREETI PANT, Under Secy.

The 6 September 2004

No. 81: (F.No. A-19013/22/2004-Ad.I):—The President of India is pleased to appoint Shri R.L. Meena, IC&CES as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 3.9.2004 (FN) and until further orders. He is posted as Senior Technical Officer (RA).

PREETI PANT, Under Secy.

The 10th September 2004

No. 82 : (F. No. 50/29/2004-Ad.I) :—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/9/2004-CS-I dated 25.3.2004, Department of Expenditure's O.M. No. 11017/1/2004-CAS (I), dated 22.7.2004 and Ad.IB Section's Office Order F. No. 50/15/2004-Ad.IB dated 8.9.2004, the President of India is pleased to appoint Shri R.K. Sinha, regular Assistant of the finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) [SL-1989/316] as Section Officer of the CSS on *ad-hoc* basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Revenue w.e.f. 1.9.2004 (FN) and until further orders.

2. The above *ad-hoc* promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section officer Grade of Central Secretariat Service.

PREETI PANT, Under Secy.

The 13th September 2004

No. 83 : (F. No. A-12026/13/2004-Ad.I):—The President of India is pleased to appoint the following two officers as Assistant Director, Directorate of Enforcement under the Foreign Exchange Management Act (FEMA) on deputation basis on usual deputation terms in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- for a period of three years w.e.f. the date shown against each and until further orders :—

1. Shri B. Kulshrestha, Indian Revenue Service.....w.e.f. 5.4.2004 (FN)

2. Shri P. Verghese Babu, Dy. Central Intelligence.....w.e.f. 16.2.2004 (FN) Officer (Intelligence Bureau)

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 6th September 2004

No. 7 (F. No. 5/2/2002-Ad.IC):—The President is pleased to appoint Shri S. Subbiah as Deputy Director, Directorate of Enforcement under Foreign Exchange Management Act on promotion in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- with effect from 5th January, 2004 (FN).

V. P. ARORA, Under Secy.

The 10th September 2004

CORRIGENDUM

No. 8 (F. No. 5/2/2002-Ad.IC):—In the notification No. 7/2004 issued by this Department vide F. No. 5/2/2002-Ad.IC dated 6.9.2004 regarding appointment of Shri S. Subbiah, Deputy Director, Directorate of Enforcement, the pay scale may be read as Rs. 12,000-16,500/- in place of Rs. 16,400-450-20,000/-.

V. P. ARORA, Under Secy.

(COMPETENT AUTHORITY CELL)

New Delhi, the 2nd September 2004

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT (CA)

S.O. No. 4/2004 F. No. A-15011/5/2003-CA—The President is pleased to appoint Shri S. Ravi, an officer of Indian Revenue Services and presently posted as Commissioner of Income Tax, Calicut as Competent Authority and Administrator, Chennai, under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 with effect from the forenoon of 13th August 2004 and until further orders.

SUSHMA KATARIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 17th September 2004

No. A-31013/1/2003/Gr. A/1255-77—The President is pleased to appoint Shri H. Prabhakar Rao, an officer of 1969 batch of Indian Civil Accounts Service, as Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 17th September, 2004 and until further orders.

DHARITRI PANDA, Dy. Controller General of Accounts

CUSTOMS, EXCISE AND SERVICE TAX
APPELLATE TRIBUNAL

New Delhi-110066, the 16th September 2004

F. No. XIII (1)/Confl./99—Consequent upon his promotion Sh. Mukesh Gupta, Court Master is appointed as Assistant Registrar on regular basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Delhi w.e.f. 5.08.2004 (A/N)

A. K. AGNIHOTRI, Registrar

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 20th September 2004

(Leave and Appointment)

F. No. 1/9/2003-ADB—The President is pleased to designate Shri Ashok Saikia as the Principal Resident Representative of India in the Asian Development Bank with the rank of Ambassador, during his tenure as Executive Director for India, Bangladesh, Bhutan, Lao PDR and Tajikistan on the Board of Directors of the Asian Development Bank at the Bank's Headquarters, in Manila, Philippines.

R. BANNERJI, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 23rd August 2004

No. A-11011/4/2001-Admn. I—In exercise of the powers conferred by Rule 8A of the Company Law Board (Qualifications, Experience & Other Conditions of service of Members) Rules, 1993, the Central Government has appointed (ex-post facto) Shri S. Balasubramanian, Vice-Chairman, Company Law Board (CLB), to officiate as Chairman, Company Law Board, for a further period with effect from 06/06/2004 to 02/11/2004 i.e. the date of completion of tenure of Shri Balasubramanian as vice Chairman, CLB on attaining the age of sixty-two years or until the National Company Law Tribunal (NCLT) is formed, or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND
PROMOTION)

New Delhi, the 3rd September 2004

No. A-12022/01/2004-E. I.—The President is pleased to appoint Shri Anthony de Sa, IAS (MP : 80) as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion in the Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 3rd September, 2004, until further orders.

J. J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the September 2004

No. A-32015/1/98-Admn.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 24th June, 2004, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' (PAs) to the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 1.7.2004 to 31.12.2004 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier.

1. Smt. Tasnim T. Karder

2. Smt. Vibha Atri

The above mentioned promotion is being made on purely *ad-hoc* basis and the *ad-hoc* promotion will not confer on them any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at any time the *ad-hoc* promotion and revert them to the post of Stenographer Grade 'C'.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 26th August 2004

No. 2 (2)/2004-Ett.—The President is pleased to promote on an *ad-hoc* basis the following Grade-I officers of the CSS in the Selection Grade of the same service with effect from the date(s) indicated against their names and until further orders :—

Name of officer and designation	Date of <i>ad-hoc</i> promotion
Sh. B. M. Saddi, Under Secretary, Department of Secondary and Higher Education	23.8.2004 (AN)
Sh. S. K. Mukherjee, Under Secretary, Ministry of Steel	20.8.2004 (FN)

The President is also pleased to appoint on an *ad-hoc* basis Sarva Shri Saddi and Mukherjee as Deputy Secretaries in the Ministry of Steel for the same duration.

The *ad-hoc* promotion of Sarva Shri Saddi and Mukherjee to the selection grade of the CSS shall be subject to the following conditions :

1. It shall not confer on him any right to continue in the selection grade indefinitely or for inclusion in the select list of the grade for regular appointment or to claim seniority in the grade; and

2. It may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Shri Mukherjee, on his appointment as Deputy Secretary (*ad-hoc*) has relinquished charge of the appointment of Under Secretary in the Ministry of Steel with effect from 20.8.2004 (FN).

BABOO RAM, Under Secy.

The 13th September 2004

No. 5(6)/2003-Estt.—On his nomination for the appointment as Project Director in National Aids Control Organization in the Ministry of Health & Family Welfare Shri S. Y. Quraishi, IAS (HY : 71) is relieved of his duties of the office of Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Steel w.e.f. 13.9.2004 (F.N.)

BABOO RAM, Under Secy.

The 14th September 2004

No. 2(8)/2004-Estt.—On being nominated by the Department of Economic Affairs, the President is pleased to appoint Dr. B. Mohanty, IES (1976), until recently Joint Adviser, Ministry of Petroleum and Natural Gas as Additional Economic Adviser in the Ministry of Steel with effect from the forenoon of the 6th September, 2004 and until further orders.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 16th September 2004

No. A-19011/1/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri N.M.L. Bhatnagar, Under Secretary in the Ministry of Food Processing Industries as Deputy Secretary on *ad-hoc* basis in the same Ministry with effect from 20.08.2004 in terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 21/13/2004-CS I dated 20.08.2004. The appointment will be subject to the following conditions :—

(i) The *ad-hoc* promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

(ii) *Ad-hoc* appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

M. JAYARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 20th September 2004

No.A-12011/3/95-Estt.—In exercise of the powers conferred by the provision of sub-section 4 of section 3 of Forward Contract (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby extends the period of re-appointment of Shri Kewal Ram (IES : 75) as Member, Forward Markets Commission for one year i.e. for the third year with effect from 16.11.2004 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. NAYAK, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 6th September 2004

No. A-32013/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri M. L. Malhotra, Under Secretary of Central Civil Service (CSS) as Deputy Secretary purely on *ad-hoc* basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. forenoon of 20th August, 2004 or until further orders in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/-.

The appointment will be governed by the conditions (i)-(iv) as laid down in the Ministry of Personnel, P. G. and Pensions (Department of Personnel & Training) Order No. 21/13/2004-CS.I dated 20th August, 2004.

ANJU NIGAM, Dir.

New Delhi, the 22nd September 2004

File No. A-38012/1/2004-SRA—On attaining the age of superannuation, Sh. A. K. Sinhal, Deputy Director (S & R) of this Department who belongs to Group 'A' General Central Services, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 2004.

MITTER SAIN, Under Secy.

New Delhi, the 24th September 2004

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Karnail Singh IAS (UP : 75) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 20th September, 2004 in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. L. MALHOTRA, Dy.. Secy.

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)**

New Delhi-110016, the 16th September 2004

No. A-01/14/2001-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint the following Scientists 'D' as Scientist 'E' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st July, 2004 and until further orders :—

1. Sh. Sanjay Bajpai
2. Sh. B. Athiyaman

KAMAL PRAKASH, Under Secy.

No. A-32013/01/2004-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri Rajinder Singh, Junior Analyst as Scientist 'B' on *ad-hoc* basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- for six months from 10.09.2004 to 09.03.2005 or until regular incumbents join duty, whichever is earlier.

KAMAL PRAKASH, Under Secy.

No. A-32013/04/2002-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint the undermentioned Junior Analysts in the Department of Science and Technology to officiate on promotion as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000/-275-13,500/- in the Department of Science and Technology w.e.f. 12.09.2004 and until further orders :—

Sl. Name of the Officer
No.

1. Shri Basant Sharma
2. Dr. Ashok Kumar Singh
3. Shri Rajiv Sharma

KAMAL PRAKASH, Under Secy.

New Delhi-110016, the 22nd September 2004

No. A-12023/03/96-Admn. I (A).—The President is pleased to absorb Dr. Arabinda Mitra, Scientist 'F', Department of Ocean Development and presently on deputation as Scientist 'F' in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/-, in the post of Scientist 'F', Department of Science and Technology in the aforesaid scale of pay w.e.f. 17.09.2004 and until further orders.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 23rd July 2004

No. A-32012/1/2003-IFS. I.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian

Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for the year 2003 was held on 26.12.2003. The Union Public Service Commission has now approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of the following member of the State Forest Service of Arunachal Pradesh towards filling up of promotion vacancy available in Arunachal Pradesh segment of Joint AGMUT Cadre as on 1st January, 2003 :—

Sl. Name No.	Date of Birth
1. Shri Hibu Dole	28.10.1957

M. L. PARASHAR, Under Secy.

The 4th August 2004

No. A-19011/9/2004-IFS. I.—The President is pleased to appoint Smt. Alka Bhargava, an officer belonging to the 1987 batch of Assam Meghalaya cadre of the Indian Forest Service, to the post of Assistant Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 2nd August, 2004 and until further orders.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

The 9th August 2004

No. A-32012/1/2003-IFS-I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri D.N.F. Carvalho (DOB : 1.12.55), a State Forest Service officer of Goa to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 2003 with effect from 6.7.2004 and to allocate him to AGMUT cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

The 24th August 2004

No. A-32012/1/2003-IFS. I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri Hibu Dole (DOB : 28.10.1957), a State Forest Service officer of Arunachal Pradesh to the Indian forest Service on the basis of Select List of 2003 with effect from 18.08.2004 and to allocate him to AGMUT cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 20th September 2004

No. A-38020/4/2004-CHS. IV—The Government of India announce with deep regret the death of Dr. (Smt.) Sneha Lata, an officer of the Specialist Grade-I of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services and holding the post of Specialist Grade-I (Obst. & Gynae) at CGHS (RML Hosp.), New Delhi on 29th July, 2004.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

The 23rd September 2004

No. A-38012/3/2003-CHS. IV—Consequent on the acceptance of her voluntary retirement from service, Dr. (Mrs.) Shanthi Ananthakrishnan, an officer of the Specialist Grade-I (Paediatrics) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service relinquished charge of the post of Specialist grade-I (Paediatrics). Central Govt. Health Scheme, Chennai with effect from the forenoon of the 1st September, 2003.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 24th September 2004

No. A-12024/1/98-D/DMS&PFA (Vol. I)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Sayali Umesh Warde, Sr. Scientific Assistant, CDTL, Mumbai to the post of Senior Scientific Officer, Grade-II (Microbiology), CDTL, Mumbai in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on permanent basis from the date of assumption of charge of the post of SSO, Grade-II (Microbiology).

NITA KEJREWAL, Under Secy.

New Delhi-110011, the 27th September 2004

No. A-12025/17/2001-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vishal Sawhney to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 6.1.2004 until further orders. Dr. Vishal Sawhney is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/190/94-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shivraj Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of

Rs. 2200—4000/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21.9.1994 until further orders. Dr. Shivraj Singh is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/95/94-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. M. Parasulingam to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21.9.1994 until further orders. Dr. M. Parasulingam is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Chennai.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 17th August 2004

No. 12022/7/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Harish Prasad, IDES (85) as Director in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 17.8.2004 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

S. S. PRASAD, Dir. (Personnel)

New Delhi, the 16th September 2004

No. 4-4/2004-Extension—The President is pleased to appoint Sh. K. V. Satyanarayana, IAS (MT : 82) as Director General, National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE) at Hyderabad under the Department of Agriculture and Cooperation at the level of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- with effect from the forenoon of 5.8.04 for a normal Central Deputation Tenure of five years upto 4.8.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

U. K. S. CHAUHAN, Dir.

New Delhi, the 16th September 2004

No. 27-2555/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri Kuntal Sensarma, IES (95) as Deputy Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 16.9.2004 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 21st September 2004

No. 5-11/2004-INM-A—The competent authority has agreed to change the designation of the posts of Chief

Analyst, Senior Analyst and Analyst in Central Fertiliser Quality Control & Training Institutes, Faridabad, a subordinate office under the administrative control of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation and its Regional Fertiliser Control Laboratories at Navi Mumbai, Chennai and Kalyani. The details of changes in designations are as under:—

Sl. No.	Existing name of Post	Scale of Pay	Name changed as
1.	Chief Analyst	Rs. 12000-16500	Joint Director
2.	Senior Analyst	Rs. 10000-15200	Deputy Director
3.	Analyst	Rs. 8000-13500	Assistant Director

SATBIR SINGH, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 20th September 2004

No. 12023/1/2002-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri I.A. Siddiqui, Senior Technical Assistant (Fy.) in this Department, to the post of Fisheries Research Investigation Officer (FRIO) on officiating promotion basis (ad hoc) in the pay-scale of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 17.9.2004 (FN) for a period of one year or till a regular incumbent joins, whichever is earlier.

P.L. MBENA, Under Secy.

No. A-12025/2/2003-Admn.-I—The President is pleased to promote the following Assistant Commissioners to the post of Deputy Commissioners w.e.f. 20th September, 2004 (FN) for a tenure of one year or till regularly selected candidate joins duty or whichever is earlier:—

Sl. No.	Name and Designation	Post to be promoted
1.	Dr. S. Govekar, Assistant Commissioner (RD)	Deputy Commissioner (HB)
2.	Dr. Babu Ram, Assistant Commissioner (CU)	Deputy Commissioner (ICDP)

P.L. MBENA, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)**

New Delhi-110001, the 24th September 2004

No. 3-8/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri K.V. Krishnan (IES:73) as Economic Adviser in the Department of Women and Child Development in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 with effect from the forenoon of 20th August 2004 and until further orders, in pursuance of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance order No.11016/4/2002-IES dated 9.8.2004

D. JHINGRAN, Dir.

**MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)**

New Delhi, the 9th September 2004

P.No. A. 32012/2/2001-Est.—The President is pleased to appoint Shri Sudesh Kumar, Under Secretary (Central Secretariat Service) as Deputy Secretary on ad hoc basis with effect from 20th August, 2004.

The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS.

ANJU BHALLA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th August 2004

No. 12022/1/2004-Est.(TA)—The President is pleased to appoint Shri K.N. Singh, an officer of Central Secretariat Service (CSS) as Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/- in National Commission for Scheduled Tribes under the Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 30.07.2004 (A.N.) till the date of his superannuation on 30.11.2007 or until further orders whichever event takes place earlier.

S.K. GUPTA, Under Secy.

The 20th September 2004

No. 12025 (D)/96-Est.—The President is pleased to appoint Dr. R.C. Mahapatra, substantive Research Officer in this Ministry to the post of Deputy Director (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) on purely temporary and ad-hoc basis in the scale of Rs. 10,000-325-15200/- w.e.f. 13.8.2004 to 30.9.2004 or until further orders whichever is earlier.

2. The appointment will not confer upon him any right for seniority or regular appointment in the higher grade.

S.K. GUPTA, Dy. Secy.

The 21st September 2004

No. 12022/1/2004-Est.(TA)—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar, IAS (MP:70) as Secretary in National Commission for Scheduled Tribes under the Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 18.08.2004 (A.N.).

S.K. GUPTA, Dy. Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 14th September 2004

No. 1-2/2004-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 21/13/2004-CE.I dated

20.08.2004, the President is pleased to appoint the following Under Secretaries (Grade I of CSS) borne on the cadres mentioned against their names to Selection Grade of CSS (Director) on purely ad-hoc basis in the cadre of Department of Posts, in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from the dates mentioned against each of them:—

S.No. Name	Cadre from where transferred	Date of appointment to Selection Grade of CSS
1. Shri T.J. Banerjee	Industrial Policy and Promotion	25.08.2004
2. Shri P.S. Sareen	Culture	08.09.2004

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the officers any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

G.P. PILLAI, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st September 2004

No. E(GP)2002/1/50—The President is pleased to approve of the undermentioned 3 Group 'B' officers of Mechanical Engineering Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from 14.6.2004 on the Railway mentioned below :—

PANEL FOR THE YEAR 2002-2003

CENTRAL RAILWAY

(S/Shri)

1. D.N. Soni
2. S.N. Sharma (now working in W.C. Rly.)

WESTERN RAILWAY

1. H.V. Sharma (now working in W.C. Rly.)

V.N. MATHUR, Secy./Railway Board

The 24th September 2004

No. E(O)III-2004/RN/13—Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri D.K. Rudola, SA Grade/IRSME, has resigned from Railway service with effect from 26.08.2004 (AN).

V.N. MATHUR, Secy./Railway Board.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 25th August 2004

No. A-12026/1/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri K.D. Gupta, presently working as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Department of Road Transport & Highways on purely ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 12,000-375-16500/- w.e.f. 20.8.2004 (F.N.) till further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any appoint of time without giving any reason thereof.

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.